Corporate office: Plot No.1, Maruti Joint Venture Complex, Gurugram, Haryana-122015

CIN: U29304DL2019PLC347460

Website: www.ndrauto.com

Email id: info@ndrauto.com Phone No.: 9643339870-74

10th December, 2020

BSE Limited

Corporate Relationship Deptt.

PJ Towers, 25th Floor, Dalal Street,

Mumbai - 400 001

Code No: 543214

National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, Plot No.C/1, G-Block Bandra

Kurla Complex, Bandra (East),

Mumbai - 400 051.

Code No. NDRAUTO

SUB: Submission of Newspaper advertisements under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015

Dear Sir

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, please find enclosed copies of advertisements published on 9th December, 2020 in newspapers- Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) in connection with the 1st Annual General meeting of the Company.

We request to take the same on record as compliance with the relevant SEBI (LODR) Regulations and acknowledge receipt.

Thanking You,

Yours Faithfully,
FOR NDR AUTO COMPONENTS LIMITED

(Nitasha Sinha)
COMPANY SECRETARY
Membership No A27439
Encl:a/a

FINANCIAL EXPRESS

LOAN MORATORIUM

Blanket interest relief to wipe out half of SBI net worth, govt tells SC

New Delhi, December 8

THE GOVERNMENT ON Tuesday argued against any further waiver of interest on all the loans and advances given to borrowers during the six-month moratorium period that ended on August 31, saying, "this will mean forgoing an estimated over ₹6 lakh crore".

According to the government's latest affidavit on the matter in the Supreme Court, in the case of State Bank of India (SBI) alone, waiver of six months' interest would completely wipe out over half of the bank's net worth which has accumulated over nearly 65 years of its existence.

During the hearing, the apex court bench led by Justice Ashok Bhushan, however, observed that it would not pass any order that will risk the economy going "haywire." The court had earlier asked the government, Reserve Bank of India (RBI) and banks if power and real estate sectors could be given succour on the debt front.

"If the interest is waived on all the loans and advances for the moratorium period, about all classes and categories of borrowers, the amount to be foregone would be more than ₹6 lakh crore... if the banks were to bear this burden, it would necessarily wipe out a substantial waiver of interest was not even contemplated and only payment of instalments was deferred," Solicitor General Tushar Mehta told the court.

interest (including interest on interest) to depositors is not only WHAT THE GOVT SAYS

■ If an entity had defaulted before Covid. then benefits shouldn't be extended to it

■ Power gencos and realty developers face

issues; interest waiver not a solution ■ Response to recast

pre-coronavirus legacy

scheme may remain lukewarm, says S&P report

one of the most essential banking activities but is a huge responsibility that can never be nesses, and keep the lifeblood of compromised as most of the finance flowing," the SG stated. depositors are bound to be small depositors, pensioners, etc, surviving on the interest from their deposits," the SG said.

It submitted that banks can't bear the burden resulting from waiver of compound interest without passing this burden on to the depositors or affecting their networth adversely, which would not be in the larger national economic interest.

He said that a possible crippling of the banking sector was one of the main reasons for "not even contemplating waiver interest"and restricting relief to "deferment of payment of instalments". Mehta said that for every

loan account, there are about 8.5 deposit accounts in the Indian banking system. As mentioned by the Indian Banks Association, the SBI has stated that interest amount from borrowers during six months moratorium works out to be around ₹88,078 crore whereas the interest payable to the depositors during the said period works out to be around ₹75.157 crore.

Mehta said that the Finance Ministry under the Disaster Management Act, and RBI have acted pro-actively.

"The overriding objective was to prevent financial markets from freezing up; ensure normal functioning of financial intermediaries; ease the stress faced by households and busi-

It submitted that such caseby-case resolution/reconstruction of individual loan accounts by customising the reliefs to individual borrowers can never be done either by the Finance Ministry or by the RBI. This exercise involves crores of borrowers and therefore, it can be done only by the respective lenders.

He also said that the banks were fully empowered to resolve Covid-19 related stress and customise reliefs to individual borrowers (other than big borrowers) through a grant of various concessions including altering the interest rate and haircut on the amount payable as interest, waiving penal interest and charges and rescheduling repayment.

"The Kamath Committee set up by the RBI has recommended financial parameters for debt restructuring of 26 sectors affected by Covid-19. For corporate accounts (other than MSMEs with up to ₹25 crore exposure) which were up to 30 days overdue as on March 1, 2020, the framework of August 6, 2020, provides lenders and borrowers various ways of ensuring viability. At the same time, the prudential framework of June 2019 continues to be available for cases not covered under the August 6 framework," Mehta told the judges.

Travel restrictions effective in countries with low number of coronavirus cases: Lancet study

country.

spreading rapidly within a

measures carry a high eco-

nomic and social cost, so it is

important that governments

use travel restrictions in a tar-

geted way," said Professor Mark

Jit from the London School of

Hygiene and Tropical Medi-

cine, who led the study.

"We recognise that these

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, December 8

TRAVEL RESTRICTIONS ARE effective in countries with low numbers of Covid-19 cases, or that have strong travel links with nations experiencing high rates of the viral infection, according to a study published in The Lancet Public

Health journal.

The study also suggests that travel restrictions may have been most effective during the early stages of the pandemic, and the measures are unlikely to be effective when the virus is already

CBI look-out notice against coal trader

issued a look-out notice against an accused Anup Majhi alias Lala, a spokesperson said on Tuesday. The notice was issued to ascertain his whereabouts as his interrogation is needed during the course of the probe, spokesperson said. The central investigating agency had on November 28 conducted raids at 45 places, including in West Bengal against illegal coal mining at different places including West Bengal.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that original sale

THE CBI WHICH is probing the illegal coal trading case has

deed dated 18.12.2004 registered in the name of Mrs Meena Gaur and Ajay Gaur in the office of Sub-Registrar-I, Book No-I, Jild no. 6598 page no.1/30 at the serial no. 10944 is lost somewhere and if somebody find the same kindly return to H.No T-54A, Sewagram Colony Lucknow, otherwise use of the papers will be illegal. At the time of registry the ownership was with Meena Gaur and Ajay Gaur and at present after death of Mrs. Meena Gaur ownership of above property is transferred to Ajay Gaur and her successors Subham Gaur and

MIS DEOBAND MUTUAL BENEFITS NIDHI LIMITED Regd. office: Mohalla Deewan, Deoband, Distt. Saharanpur, UP-247554, India

Notice for 1" Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 1st Annual General Meeting of MIS DEOBAND MUTUAL BENEFITS NIDHI LTD. will be held at 646, Railway Road, Police Chowki Saray Peer, Zadgan, Deoband, Distt. Saharanpur, UP-247554 on Thursday, the 31" December, 2020 at 11:00 A.M. to transact with or without modifications, as may be permissible, the following business.

ORDINARY BUSINESS: . To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the period ended 31st March, 2020 and the Reports of the Board of Directors and Auditors thereon. To appoint a Director in place of Mr. Mohd. Asif Director (DIN-08562726), who retires by rotation and

eing eligible, offers himself for re-appointment, To appoint a Director in place of Mr. Mohd. Sufyan. Director (DIN-08562725), who retires by rotation and To consider and if thought fit, to pass with or

without modification(s), the following resolution as an Ordinary Resolution: "RESOLVED THAT that pursuant to the provisions of Section 139 and all other applicable provisions, if

any, of the Companies Act. 2013 and the Rules framed thereunder, as amended from time to time. the M/s Saurabh Sakshi & Associates, Chartered Accountants (Firm Registration No. 017918N). having registered office at B-105, Preet Vihar, Delhi-110092 is hereby appointed as Auditors of the Annual General Meeting (AGM) till the conclusion of the AGM of the Company to be held in the year 2025 at such remuneration as may be mutually agreed between the Board of Directors of the Company and the Statutory Auditors." By order of the Board

Ph.: 01336-222271, Email: nidhimfd209@gmail.com MOHD, USMAN (Director)

> Saharanpur, U.P.-247554 Place: Deoband, Date: 7" December, 2020 A Member entitled to attend and Vote at the AGA entitled to appoint proxy to attend and vote instead of him/her and the proxy need not be a member. The instrument of proxy, in order to be effective, must be duly filled, signed, stamped and

should be submitted to the Registered Office of the mencement of the meeting. The Register of Members shall remain closed rom 21st December, 2020 to 30th December (Both days inclusive)

Audited Financial Statements along wit Auditor's Report and Director's Report have also been affixed on NOTICE BOARD of the mpany and attendance slips and Proxy

Due to COVID Pandemic, Local Administration s given permission to hold AGM with a maximum gathering of 50 participants only. Therefore, it mandatory for members or proxy thereof who are sterested to attend AGM to register their name with the In-charge Head Office of the Company a least 24 hours before meeting. Moreover, pursuant to guidelines issued by Administratio and Health Deptt. all participants are requested to Mask since it is necessity as well as very important in the interest of all in prevailing circumstances.

OFMISDEOBANDMUTUALBENEFITSNIDHILTD.

MOHD, USMAN (Director) DIN No.08562724

Add: 646, Railway Road, Deoband, Distt Saharanpur, U.P.-247554

Place: Deoband, Date: 7" Dece

ANS INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off.: 136 KM, GT Road, Vill & P.O Shamgarh, Karnal (Haryana) Head Off.: 144/2, Ashram, Mathura Road, New Delhi - 110014, CIN: L15130HR1994PLC032362 E-mail: ansagro.limited@gmail.com, Website: www.ansfoods.com

NOTICE OF 26™ ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE & REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 26" Annual General Meeting of the Company will be held on Wednesday, the 30" Day of December, 2020 at 12.30 P.M at the registered office of the Company at 136 KM, PO-Shamgarh, District -Kamal, Haryana- 132116 to transact the business set out in the notice of AGM.

Due to Pandemic COVID-19 SEBI and MCA have issued circular granting exemption from dispatching of physical copies notice of AGM & Annual Report for the year 2019-20 and same will be send through electronic mode to those shareholders whose email IDs are registered with RTA/ Depository Participants and further Notice of AGM along with Annual Report will also be available on the website of the company www.ansfoods.com and website of BSE, www.bseindia.com

Shareholders holding shares in physical mode and who have not registered/update their e-mail Id's are kindly requested to please update the same with Company Depository Participant/Registrar and Share transfer agent of the Company Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42

of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015, Notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 24th December, 2020 to 30th December, 2020 (both days inclusive) for the purpose of ensuing Annual General Meeting of the Company.

Further pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (listing obligations and Disclosures requirement) Regulatins, 2015 Company is pleased to provide remote e- voting facility to shareholders through National Securities Depository Limited (NSDL), to cast their right to vote from a place other than venue of AGM in respect of business set out in the notice of AGM. The details

The e-voting period commences on Sunday, the 27" day of December, 2020 at 9.00 A.M. and end on Tuesday, the 29"day of December, 2020 at 5.00 P.M. during this period shareholder holding shares either in physical form or in dematerialized form may cast their vote electronically, the remote e-voting shall not be allowed beyond the said date

The Cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or at the venue of AGM is 23" December, 2020.

Any person, who has acquired shares and becomes member of the Company after sending of the AGM notice and holding shares as on cut-off date, may also obtain the login ID and password by sending a request at e-mail-ld:evoting@nsdl.co.in or sm@masserv.com/ info@masserv.com. If already registered with NSDL then Shareholders should use their existing user ID and password for casting their vote.

In case if they have any grievances, queries or issue regarding e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com under help section or write an email to evoting@nsdl.co.in or make call at following toll free No. 1800-222-990 or contact Mr. Sharwan Mangla (General Manager) of MAS Services Ltd (RTA) Limited at T-34, 2nd Floor, Okhala Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020, Contact No.011-26387281/82/83, mail idinfo@masserv.com/sm@masserv.com.

A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM. The Company shall also provide voting through Ballot Paper for the members present at the meeting and not cast their vote by availing the remote e-voting facility. For ANS Industries Limited

(Manoj Mishra)

Company Secretary Date: 07.12.2020

India at advantage with huge skilled workforce for post-Covid world: PM

PRESS TRUST OF INDIA Hvderabad, December 8

OBSERVINGTHATOVERCOM-ING challenges in the post Covid-19 world and keeping up with the emerging trends is crucial for businesses, Prime Minister Narendra Modi said India was in an advantageous position with its huge pool of skilled workforce.

In a written message to the

three-day TiE Global Summit (TGS) being held virtually, Modi said over the last six and of years, the Centre has injected a new spirit via wide-ranging reforms in policies and governance and as a force multiplier, technology has been making a positive

impact in lives of people. "Overcoming the challenges in the post Covid-19 world and keeping up with the emerging trends and opportunities is cru-

cial for the businesses and enterprises to stay relevant. In such a scenario India finds itself in an advantageous position with its huge pool of skilled workforce and demographic potential," he said.

The PM said the nation was marching ahead with its resolute resolve to build a strong and self-resilient India that encapsulates the vision of world welfare and full integration.

DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION LIMITED National Office: DHFL House, 4" Floor, 19 Sahar Road, Off. Western Express Highway Vile Parle East, Mumbai – 400099 Regional Office: Plot No-6, Block A, Sector-2, Noida, U.P-201 301. | Contact Person: 1. Mr. Hari Sharan Singh (Mobile: 8595371836) Changing Rules Changing Lives 2. Auction Service Provider "Nexxon Solutions Pvt Ltd". (Mobile No: 7977285407)

E-Auction Sale Notice-Subsequent Sale

Pursuant to taking possession of the secured asset mentioned hereunder by the Authorized Officer of Dewan Housing Finance Corporation Limited under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 for the recovery of amount due from borrower's, offers are invited by the undersigned in sealed covers for purchase of immovable

roperty, as described hereunder, which is in the physical possession, on 'As Is Where Is Basis', 'As Is What Is Basis' and 'Whatever Is There Is Basis', Particulars of which are given below: Earnest Mone Borrower(s) **Demand Notice** Description of the Total Loan Outstanding Deposit (EMD Co-Borrower(s) Price (RP) (As on 2[™] Nov of 2020) Immovable property Date and Amount (10% of RP) Guarantor(s) Rs. 38.47,671/-(Rupees LC No. - 00041115 Rs. 18,00,000 /-Rs.1,80,000/- (Rupee: 27-03-2018, Rs. 2835486 (Rupees: -All the Part and Parcel of Property Delhi - CP-Branch) Twenty Eight Lakhs Thirty Five Thousand | bearing:- House No.-A-1/246, Block-A1, One Lakhs Eighty Thirty Eight Lakhs Forty Seven Thousand Six Hundred Deepak Singh /Sonu Four Hundred and Eighty Six Only.) Dif Colony Dilshad Garden Extension-2 Thousands Only) and Seventy One Only) 3haziabad Pincode- 201005 All the Part and Parcel of Property LC No. - 00000127, 13-12-2016, Rs.1602256 Rs. 10,75,000 /-Rs. 1,07,500/- (Rupees Rs. 24,77,335 /- (Rupees :-Karkarduma Noida (Rupees: - Sixteen Lakhs Two Thousand bearing: - Flat No. 47 A, First Floor, GDA One Lakhs Seven Twenty Four Lakhs Seventy Flats. Shakti Khand- I, Indirapuram, Branch) Gayyur Ali/ Lakhs Seventy Five Thousands and Five Seven Thousand Three Two Hundred and Fifty Six Only.) Mrs. Najama Ali Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201014 Hundred and Thirty Five Only) The Terms and Conditions of the E-Auction are as under:

E-Auction is being held on "AS IS WHERE IS BASIS", "AS IS WHAT IS BASIS", and "WHATEVER IS THERE IS BASIS" and will be conducted "Online". The Auction will be conducted through the DHFL approved auction service provider "Nexxen Solutions Pvt Ltd" Last Date of Submission of Tender/Sealed Bid/Offer in the prescribed tender forms along with EMD and KYC is 28-12-2020 up to 5:00 PM at the ZonalOffice address mentioned herein

Date of E-Auction for Property is 29-12-2020 at the web portal (http://Disposalhub.com) from 11:00 AM to2:00 PM with unlimited extensions of 5 Minutes each The tender/Sealed Bid/offer will be opened in the presence of the Authorised Officer. Date of Inspection of the Immovable Property is on 21-12-2020 between 11.00 AM to 04.00 PM.

above. Tenders that are not filled up or tenders received beyond last date will be considered as invalid tender and shall accordingly be rejected. No interest shall be paid on the EMD.

The tenderer/online bidder hereby agrees that once he/she has formally registered a qualified tender before authorized officer will have to express their interest to participate through the E-auction bidding platform, by submitting this document. It shall be the tenderer's/online bidder's sole responsibility to procure his/her login id and password from auction service provider.

Further interest will be charged as applicable, as per the Loan Agreement on the amount outstanding in the notice and incidental expenses, costs, etc., is due and payable till its realization. The notice is hereby given to the Borrower/s and Guarantor/s they can bring the intending buyers/purchasers for purchasing the immovable property as described herein above, as per the

Since in above mentioned cases wherein Sale Notice was issued/published earlier also therefore, the Borrower(s)/Co-Borrower(s)/Guarantor(s) are hereby given 15 DAYS SALE NOTICE UNDER THE SARFAESI ACT, 2002 (as per the revised guidelines in the Gazette of India notification dated 03/11/2016) to pay the sum mentioned as above before the date of Auction

failing which the immovable property will be auctioned and balance, if any, will be recovered with interest and costs. If the Borrower pays the amount due to Dewan Housing Finance Corporation Ltd., in full before the date of sale, auction is liable to be stopped. The detail terms and conditions of the auction sale are incorporated in the prescribed tender form. Tender forms are available at the above mentioned National/Zonal/Branch office. The immovable property will be sold to the highest tenderer/Bidder in E-Auction. The Authorized Officer reserves the absolute discretion to allow inter se bidding with minimum Bid increme

amount. The Property as mentioned will not be sold below Reserve Price. 12. The Tenderer(s) / Offerer(s) / Prospective Bidder(s) / Purchaser(s) are hereby notified that the secured asset will be sold with the Encumbrances and dues payable to Statutory Authority (if any)

and are also requested, in their own interest, to satisfy himself / themselves/ itself with regard to the above and other relevant details pertaining to the above mentioned secured asset before

3. DHFL is not responsible for any liabilities whatsoever pending upon the property as mentioned above. The Property shall be auctioned on 'As Is Where Is Basis', 'As Is What Is Basis' and 'Whatever Is There Is Basis'.

The Total Loan Outstanding amount is not the loan foreclosure amount. All other charges (if any) shall be calculated at the time of closure of the loan.

The Demand Draft Should be made in favorof 'Dewan Housing Finance Corporation Limited' only.

16. Wherever applicable , its responsibility of auction purchaser to deduct Tax at Source (TDS) @ 1% of the total sale consideration on behalf of the resident owner on the transfer of immovable

property having consideration equal to ₹50 lacs and above and deposit the same with appropriate authority u/s 194 IA of Income Tax act. For further details, contact the Authorised Officer, at the above mentioned Office address. **Authorised Officer**

For Dewan Housing Finance Corporation Limited Place : Delhi

CAPITAL

PROTECTING INVESTING FINANCE ADVISING

Aditya Birla Housing Finance Limited Registered Office: Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat 362 266 Branch Address ; Aditya Birla Housing Finance Ltd, D -17 Sector -3 Noida UP-201301

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to rule 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the

Secured Creditor, the Physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Aditya Birla Housing Finance Limited/Secured Creditor basis of Allotment Letter, will be sold "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 26/12/2020, for ecovery of Rs. 59,65,023.28 /- (Rupees Fifty Nine Lakhs Sixty Five Thousand Twenty Three and Twenty Eight Paisa Only) as on 30-Nov -2020 and further interest and other expenses thereon till the date of realization, due to Aditya Birla Housing Finance imited/Secured Creditor from the Borrowers and Guarantor(s) namely MR SARABJEET

The reserve price will be Rs 28,01,887/-(Rupees Twenty Eight Lakhs One Thousand Eigh Hundred and Eighty Seven Only) and the Earnest Money Deposit (EMD) will be Rs 2,80,188/ (Rs Two Lakhs Eighty Thousand One Hundred Eighty Eight Only). The last date of EMD deposit is 24/12/2020 excluding builder charges DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY:

FLAT NUMBER 1703, 16th Floor, TOWER -T3 UNITECH HORIZON ESTATE , SECTOR -PI II.GREATER NOIDA - 201301, Super Area 1740 SQ FT

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Aditya Birla Housing Finance Limited/Secured Creditor's website i.e https://homefinance.adityabirlacapital.com/properties-for-auction-under-sarfaesiact or https://sarfaesi.auctiontiger.net. Contact Mr Tung Dhwaj Kaushik

9873662400, Mr Pankaj Rana- 7065748080, Mr Mandeep Luthra ;-09930879657. **Authorised Officer** Aditya Birla Housing Finance Limited

NDR AUTO COMPONENTS LIMITED



Registered Office: Level-5, Regus Caddie Commercial Tower, Hospitality District Aerocity, IGI Airport, New Delhi 110037 **Ph:** +91 9843339870-74

NOTICE OF 1ST ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE(VC)/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS(OAVM) AND **E-VOTING INFORMATION** NOTICE is hereby given that the 1st Annual AGM of the Members of NDR Auto

Components Limited will be held on Tuesday, 29th December, 2020 at 10.30 a.m. ir compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 read with General Circulars no.14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 12th May, 2020 respectively and other relevant Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI, to conduct the businesses as set out in the Notice dated 04th December, 2020, of the AGM through VC/ OAVM without the physical presence of the members at a common venue. The electronic copy of the Notice for the AGM and Annual Report have been sent to al

the members whose email IDs/addresses are registered with the Company/ Depository participants/RTA. The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.ndrauto.com, and also on the website of the Stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com. The Company is providing to its members, facility to exercise their right to vote on

resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means (remote e-voting). The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as the authorized agency to provide remote e-voting facility. Members are requested to click on https://www.evotingindia.com for casting the vote.

The facility of voting through electronic means will also be available at the AGM and only those members who are present in the AGM and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, wil be eligible to vote at the AGM.

Information and instructions including for login, password and for e-voting forms par

A person whose name appears in the Register of Members/ Beneficial Owners as on

of Notice emailed to shareholders (Please refer Note No.17 to Notice for AGM). The details of remote e-voting are as under: Date and time of commencement of remote e-voting: 26th December, 2020 at 9

• Date and time of end of remote e-voting: 28th December, 2020 at 5 p.m. The Remote e-voting will not be allowed beyond 5 p.m. on 28th December, 2020.

cut-off date i.e. 22nd December, 2020 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or participation at the AGM and e-voting at the meeting. A person who becomes a member after dispatch of notice and holding shares as on the cut-off date, i.e. 22nd December, 2020 may follow the procedure as provided in the

Note no.17 to the Notice of AGM. The members who have cast their vote through remote e-voting, prior to the meeting. can attend the AGM but are not entitled to cast their vote again

The Board of Directors has appointed Mr. R.S. Bhatia, Company Secretary in Practice (Membership No. FCS:2599, CP No.2514) as a Scrutinizer to scrutinize the voting process through e-voting, in a fair and transparent manner. 11. In case of any grievances/ queries relating to e-voting, live webcast, you may email to

Mr. Punit Mittal, at investor@beetalfinancial.com at Beetal Financial & Computer Services (P) Limited or send an email at CDSL at helpdesk.evoting@cdslindia.com or call Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542). Members may also write to the Company Secretary at cs@ndrauto.com.

For NDR Auto Components Limited (Nitasha Sinha) Place: New Delhi **Company Secretary** Membership No. A27439

INDIA RESURGENCE ARC PRIVATE LIMITED INCIGIRE POSSESSION NOTICE

Vhereas, the undersigned being the Authorized Officer of M/s India Resurgence ARC Private Limited (IRARC), an Asset Reconstruction

Company (registered with Reserve Bank of India) having its Registered Office at: 3rd Floor, Unit No. 304, Piramal Tower, Peninsula Corporate Park, Lower Parel, Mumbai-400013 under the provision of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) (hereinafter referred to as 'IRARC") and in exercise of the powers conferred under Section 13(12 ead with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002 issued Demand Notice dated 11.06.2020 calling upon, 1. M/s J.S. Traders A Proprietorship Firm, through its Proprietor, Mr. Jaiveer Singh, having

ts office at : UVB-011, Udyog Vihar, Building Material Market, Greater loida, Uttar Pradesh-201308. 2. Sudesh Kumar S/o Harsharan Singh R/o: H. No. 153, Beta-2, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, Noida Uttar Pradesh-201308, 3. Jaiveer Singh S/o Hari Singh, R/o: UVB-011 Udyog Vihar, Building Material Market, Greater Noida, Uttar Pradesh 201308, to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 1,27,40,245.75/- (along with interest from 20.05.2020) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the

borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security nterest Enforcement) Rules, 2002 on this the 6th day of December, 2020. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of "IRARC" for an amount Rs. 1,27,40,245.75/- and nterest other charges thereon 20.05.2020

13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset. SCHEDULE OF PROPERTY All that piece and parcel of UVB-011, (Plot No. B-11, Block-UV), Area

The attention of borrower is invited to provisions of sub-section (8) of Section

Admeasuring 120 Sq. mtrs., situated at Udyog Vihar, Building Material Market, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, Noida, Uttar Pradesh. Place: Noida M/s India Resurgence ARC (Pvt) Ltd Date: 06.12.2020

NOTICE

Notice is hereby given that the Twenty Eighth (28th) Annual General Meeting of the

company will be convened on Thursday, December 31st, 2020 at 2:00 PM through

Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) facility in compliance

Trillenium Technologies Limited Regd. Off.: H-40, Moti Bagh-2, Mini Market, Nanak Pura, New Delhi-110021 CIN: U74899DL1992PLC051008: Email: trillenitech@vahoo.co.in

with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made there under and with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated $08^{\scriptscriptstyle th}$ April 2020, 13th April, 2020, 05th May, 2020, 22/2020 dated 15th June 2020 and 33/2020 dated 28th September 2020 respectively issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA Circular), without the physical presence of the Members at a common venue. The Notice of the AGM along with Annual Report 2019-2020 will be sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the

company/ depositories in accordance with the aforesaid MCA Circular. Members may note that Notice of the AGM and Annual Report 2019-2020 will also be available on the website of the company https://instavote.linkintime.co.in. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013. We urge all the shareholders who have not registered their email addresses with the

Company/ Depositories to do so forthwith in order to receive all communications promptly without any disruption. Updating of correct email address in the records will help us to communicate with you effectively, especially during this challenging times. For this purpose, we request shareholders who have not updated their email

addresses and Permanent Account Number to kindly update the same by following the below mentioned link and quoting your Folio No./ DP/ClientID, Certificate No., PAN, Mobile No., Email ID along with a self-attested copy of your PAN card/ Aadhar/ Valid Passport/ Share Certificate:

Process for member's registration Email ID and Bank details:-The Members holding Equity Shares of the Company in Demat Form and who

who have not registered their email addresses and/or Bank Account details

New delhi-110058

Date:08/12/2020

Place: New Delhi

with the Company's Registrar and Share Transfer Agent M/s Link Intime India Private Limited, by clicking on the link: http://linkintime.co.in/ emailreg/email_register.html and follow the registration process as guided therein. In case of any query, a member may send an email to M/s Link Intime India Private Limited at rnt.helpdesk@linkintime.co.in It is clarified that for permanent registration of email address and Bank Details in your Demail account, members are requested to approach the respective Depository Participant ('DP') and follow the process advised by DP. The Members holding equity shares of the company in Physical Form and

may register the same with the Company's Registrar and Share Transfer

Agent M/s Link Intime India Private Limited, by clicking on the link

have not registered their email addresses may temporarily register the same

http://linkintime.co.in/emailreg/email register.html and follow the registration

process as guided therein. In case of any query, a member may send an email to M/s Link Intime India Private Limited at rnt.helpdesk@linkintime.co.in This is for your information and records. For any query on the above matter, shareholders of the company are requested to contact:

M/s Link Intime India Private Limited. Noble Heights, 1st Floor, Plot No NH-2, C-1 Block, LSC, Near Savitri Market, Janakpuri

Tel: 011-41410592/93/94, Telefax: 011-41410591, Email: delhi@linkintime.co.in For and on behalf of Board of Directors

TrilleniumTechnologies Limited Managing Director

financialexp.epap.in

e-mail ID i.e. genomicvalley@gmail.com or Registered Office address.

Date: 08.12.2020

Place: Haryana

and a major part of their net worth, rendering most of the banks unviable and raising a very serious question mark over their very survival. This was one of the main reasons why a

"Continued payment of

NOTICE FOR ATTENTION OF MEMBERS OF THE COMPANY The 43rd Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held

on Wednesday, December 30, 2020 at 03:00 p.m. IST through Video Conferencing

("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions EDDAL of Companies Act, 2013 ("Act") and the rules made thereunder and General Circular ssued by MCA to transact the businesses as set forth in the Notice calling the AGM. in compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM ("Notice") and Annual Report of the Company, have been sent on December 07, 2020 to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company. Electronic Copies of the same are also available on the website of the Central Depositary Services (India) Limited (CDSL) a

proposed to be passed at AGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system of CDSL on the dates mentioned herein below Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available during AGM and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be

able to vote at the AGM in the manner specified in the notice ("Specified Manner").

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolution

nformation and instructions including details of user id and password relating to e-voting have been sent to the members through e-mail. However, members are required to use the lini https://us02web.zoom.us/j/84488809379 to attend the meeting. Your Company is pleased to offer Remote e-Voting facility through CDSL which would enable you

The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but sha

to cast your vote electronically in respect of business stated in the Notice of AGM. Cut-off date for remote e-voting The remote e-voting period The period of remote e-voting shall commence at 9:00 AM on Sunday, December 27, 2020 and end at 5:00 PM or

Tuesday, December 29, 2020.

The remote e-voting shall be disabled for e-voting

By the order of the Board

Date: December 08, 202

Association Limited

Shenu Agarwa

A person, whose name is recorded in the ROM maintained by the Company as on the cut-off date i.e., Wednesday, November 4, 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting of participate at the AGM and voting during the AGM. f you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available a www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com

or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542) or Mr. Mehbool

Email: genomicvalley@gmail.com; Visit: http://www.genomicvalley.com

Company/Registrar & Transfer Agent and the physical copies of the same have been sent to the

other members at their registered address by permitted mode whose e-mail ID is not so registered

with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is

pleased to provide e-voting facility to its members holding shares either in physical form or in

dematerialized form, as on 24.12.2020 (cut-off date) to enable them to cast their vote by electronic

shall reach the Company at it registered office on or before 30th December, 2020 by 5.00 P.M.

The Members may note that e-voting by electronic mode will be allowed till 30th December, 2020

Escorts Dealers Development Association Limited For Escorts Dealers Development CIN: U51909HR1901PLC008636 Regd Office: 18/4, Mathura Road, Faridabad,

Haryana - 121 007 Phone: 0129-2225216 E-mail: statutoryfiling@escorts.co.in

GENOMIC VALLEY BIOTECH LIMITED Regd. Off.: 4 K.M. Stone, Berri Chharra Road, Village- Kherka Musalman, P.O. Tandaheri, Tehsil-Bahadurgarh, District-Jhajjar, Haryana-124507 CIN: L01122HR1994PLC033029; Tele: +91-9811341542

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE NOTICE is hereby given that the 26th Annual General Meeting (AGM) of the members of Genomi Valley Biotech Limited will be held on Thursday, 31st day of December 2020 at 11.00 A.M. at the Registered Office of the Company at 4 K.M. Stone, BerriChharra Road, P.O. Tandaheri, Teh Bahadurgarh, Dist. Jhajjar, Haryana-124507 Notice of AGM along with the Annual Report for the financial year ended 31.3.2020 have been dispatched to the members individually through e-mail whose e-mail ids are registered with the

Notice is also hereby given, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 25th December 2020 to Thursday, 31st December, 2020 (both days inclusive). Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of the Act read

means on the Business that may be transacted through e-voting service provided by the Centra Depository Services (India) Limited (CDSL). The instruction for e-voting are given in the Notice of AGM. The details pursuant to the provisions of the Act and the said rules are given hereunder (a) Date of Completion of Dispatch of Notice : Tuesday, December 08, 2020

(b) Date and Time of Commencement of E-Voting : Monday, December 28, 2020 from 9:00 A.M. (c) Date and Time of end of E-Voting For the benefit of members who do not access to the electronic voting facility for them the physical ballot form have been sent along with the Notice of AGM. The duly completed physical ballot form

by 5.00 P.M. The Company has appointed Mr. Rohit Batham, Practicing Company Secretary, New Delhi, as the Scrutinizer for conducting the e-voting and physical ballot process in a fair and The facility for e-voting through ballot/poll paper shall also be made available at the venue of the AGM. The Members attending the Meeting, who have not already cast their vote through e-voting shall be able to exercise their voting rights at the Meeting. The Members who have already cast

their vote through remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their Persons becoming Members of the Company after the dispatch of the Annual Report but on o before cut-off Date may obtain the User ID and Password by sending a request a genomicvalley@gmail.com. However, if such member is already registered with CDSL for remote e-voting then he/she can use his/ her existing User ID and Password for casting the vote.

In the event of any grievance regarding the process and manner of electronic voting, member may go through the instructions in the Notice of AGM or visit CDSL's website www.evotingindia.com and in case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 18002005533or contact Mr. Niti Kunder (022- 23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542). All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL.) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East) Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542

43 or call 18002005533. Members may also write to the Company Secretary at the above mentioned

By order of the Board For Genomic Valley Biotech Limited Yogesh Agrawal

: Wednesday, December 30, 2020 at 5:00 P.M.

Place: New Delhi Chairman & Managing Director

Date: 07/12/2020

FINANCIAL EXPRESS

LOAN MORATORIUM

Blanket interest relief to wipe out half of SBI net worth, govt tells SC

FE BUREAU New Delhi, December 8

THE GOVERNMENT ON Tuesday argued against any further waiver of interest on all the loans and advances given to borrowers during the sixmonth moratorium period that ended on August 31, saying, "this will mean forgoing an estimated over ₹6 lakh crore".

According to the governof its existence. from their deposits," the SG

During the hearing, the apex court bench led by Justice Ashok Bhushan, however, observed that it would not pass any order that will risk the economy going "haywire." The court had earlier asked the government, Reserve Bank of India (RBI) and banks if power and real estate sectors could be

"If the interest is waived on all the loans and advances for bear this burden, it would nec-Mehta told the court.

WHAT THE GOVT SAYS

■ If an entity had defaulted before Covid then benefits shouldn't be extended to it

■ Power gencos and realty developers face

pre-coronavirus legacy issues; interest waiver not a solution

■ Response to recast scheme may remain lukewarm, says S&P report

₹75,157 crore.

acted pro-actively.

It submitted that banks can't bear the burden resulting from waiver of compound interest without passing this burden on to the depositors or affecting their net worth adversely, which would not be in the larger national economic

He said that a possible crippling of the banking sector was one of the main reasons for "not even contemplating waiver interest" and restricting relief to "deferment of payment of instalments".

Mehta said that for every loan account, there are about 8.5 deposit accounts in the Indian banking system. As mentioned by the Indian Banks Association, the SBI has stated that interest amount from borrowers during six months moratorium works out to be around ₹88,078 crore whereas the interest payable to the depositors during the said period works out to be around

Mehta said that the Finance Ministry under the Disaster Management Act, and RBI have

"The overriding objective was to prevent financial markets from freezing up; ensure normal functioning of financial intermediaries; ease the stress faced by households and businesses, and keep the lifeblood of finance flowing," the SG stated.

It submitted that such caseby-case resolution/reconstruction of individual loan accounts by customising the reliefs to individual borrowers can never be done either by the Finance Ministry or by the RBI. This exercise involves crores of borrowers and therefore, it can be done only by the respective lenders.

He also said that the banks were fully empowered to resolve Covid-19 related stress and customise reliefs to individual borrowers (other than big borrowers) through a grant of various concessions including altering the interest rate and haircut on the amount payable as interest, waiving penal interest and charges and rescheduling repayment.

"The Kamath Committee set up by the RBI has recommended financial parameters for debt restructuring of 26 sectors affected by Covid-19.

Bandh: mixed response in Gujarat, with few incidents of road block

FE BUREAU Ahmedabad, December 8

THE BHARAT BANDH call given by the opposition parties and some of the farmers organisations received a mixed response in Gujarat, even as protesters tried to close highways and markets across the state. Life remained normal on

Tuesday in major cities, including Ahmedabad, Vadodara, Surat and Rajkot. Except for scattered incidents of forceful closure of markets, shops, banks, government offices and other business establishments remained open during the day. State transport buses were on schedule in most parts of the state, while the Bus Rapid Transit System in Ahmedabad, Surat and Rajkot remained operational despite a threat from protesters.

Chief Minister Vijay Rupani termed the bandh, supported by the Congress, a failure.

Arvind Thakker, president

Chief Minister Vijay Rupani termed the bandh, supported by the Congress, a failure

of Gujarat Petroleum Dealers Association, said, "More than 4,000 petrol pumps across the state remained open. Supply of petroleum products from the depots of petroleum companies too remained regular." Similarly, Mukesh Dave, president of Akhil Gujarat Truck Transport Association, said most transporters opened their offices during the day and operations remained normal.

However, there were reports of highways being blocked in some places. Sources said protesters tried to block highways connecting Ahmedabad to Viramgam, the Ahmedabad-Vadodara highway near Chhani village and Bharuch-Dahej road. Traffic resumed after police took control of the situation. Several incidents of tyred being burnt tyres on the roads were also reported in the state.

The state government had imposed Section 144 of the Indian Penal Code and banned assembly of more than four persons.

Market Produce Committees (APMCs) remained open, activities remained restricted. One of the biggest market yards in Asia, Unjha APMC, witnessed extremely low activity. Atul Kamani, president of Saurashtra APMC traders asso-

Though most Agriculture

ciation, said that though officially most APMCs in Saurashtra remained open, farmers didn't turn up with their produce, resulting in low trading. As a precautionary mea-

sure, the police detained farmers leaders', including Jayesh Patel of Gujarat Khedut Samaj on Tuesday. More than 300 protesters were reportedly detained across the state.

Travel restrictions effective in countries with low number of coronavirus cases: Lancet study

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, December 8

TRAVEL RESTRICTIONS ARE effective in countries with low numbers of Covid-19 cases, or that have strong travel links with nations experiencing high rates of the viral infection, according to a study published in The Lancet Public Health journal.

The study also suggests that travel restrictions may have been most effective during the early stages of the pandemic, and the measures are unlikely to be effective when the virus is already spreading rapidly.

"We recognise that these measures carry a high economic and social cost, so it is important that governments use travel restrictions in a targeted way," said Professor Mark Jit from the London School of Hygiene and Tropical Medicine, who led the study.

"Before introducing restric-

Date: 09/12/2020

Venky's (India) Limited

tions, they should take into ac count local infection figures epidemic growth rates, and the volume of travellers arriving from countries heavily-affected by the virus," Jit explained.

The researchers used detailed flight data to compare the number of expected Covid-19 cases arriving from interna tional flights with the number of infections arising from transmission within individual countries. They produced estimates of international travellers in May and September 2020 based on two scenarios.

One scenario used flight data for the same months in 2019, assuming no reduction in travel numbers, and the other was based on the expected reduction in passenger numbers. Numbers of cases and infection rates were estimated using a mathematical model that adjusts recorded cases to take account of asymptomatic and unreported infections.

India at advantage with huge skilled workforce: PM

PRESS TRUST OF INDIA Hyderabad, December 8

OBSERVING THAT OVER-COMING challenges in the post Covid-19 world and keeping up with the emerging trends is crucial for businesses, Prime Minister Narendra Modi said India

was in an advantageous position with its skilled workforce.

In a written message to the three-day TiE Global Summit, Modi said over the last six years, the Centre has injected a new spirit via wide-ranging reforms.

"Overcoming the challenges in the post Covid-19 world and keeping up with the emerging trends and opportunities is crucial for the businesses and enterprises to stay relevant. In such a scenario India finds itself in an advantageous position with its huge pool of skilled workforce and demographic potential," he said.

Pune Urban Co-op Bank Ltd. Pune. Head Office: 24, Lombar building, Kasba Peth, Pune 411011

FORM "Z" (Rule 107 sub-rule d-1)

POSSESSION NOTICE FOR IMMOVABLE PROPERTY

WHEREAS the undersigned being the Recovery Officer Shri. Chetan Satpute of the Pune Urban Co-op Bank Ltd., Pune, under the Maharashtra Co-op. Societies Rules, 1961 issued a Demand Notice dated 24/02/2020 calling upon the Judgment Debtor.

Shri. Maruti Baban Darekar & others to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 2,84,891/- (+) further interest with date of receipt of the said notice and the judgment debtor having failed to repay the amount, the undersigned has issued a notice for attachment dated 26/08/2020 and attached the property described herein below.

The judgment debtor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the judgment debtor and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under rule 107 (11(d-1)) of Maharashtra Co-op. Societies Rules, 1961 on this day of 08st December, 2020.

The judgment debtor in particular and the public in general is here by cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charges of the Pune Urban Co-operative Bank for an amount of Rs. 3,23,000/- as on 08/12/2020 and further interest there on.

Description of the Immovable Property

Mouje Darekarwadi, Taluka Shirur, District Pune, Land bearing Gat No. 62 adm. 00 Hectare 14 Aar assessment Rs. 00.22 Ps. Agriculture Land in the name of Shri. Baban Raghoba Darekar. Bounded by :- On the East by - Self-Property, On the South by - Property of Shri. Gavhane, On the West by - Nala, On the North by - Property of Shri. Shankar Darekar.

Mouje Darekarwadi, Taluka Shirur, District Pune, House property Grampanchayat Milkat No. 223 adm. Area 30x23 i.e. 690 sq. ft. in the name of Shri Baban Raghoba Darekar. Bounded by :- On the East by - Property of Shri. Rajendra Bhosale, On the South by -Property of Shri. Ramchandra Shelar, On the West by - Property of Shri. Balasaheb Bhosale, On

the North by - Z.P. Road.

Date: 08/12/2020 Place: Pune

(Chetan Satpute) Recovery Officer (Under Mah. Co.op. Societies Act Sec. 156 & Rule 107 Pune Urban Co-op. Bank Ltd. Pune - 411 037.

BALIRAJA SAKHAR KARKHANA LIMITED

CIN: U15421PN2001PLC147613 Reg Office: "Shraddha House", CTS No. 1206A/1, Plot No. 887-A,

Shirole Road, Off J.M. Road, Shivajinagar, Pune 411004

Tel Phone: 020 67088899

Notice of 20th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 20th Annual General Meeting (AGM) of the members of Baliraja Sakhar Karkhana Limited ("the Company") will be held on Wednesday, the 30th day of December, 2020. at 11.30 at "Shraddha House", CTS No. 1206A/1, Plot No. 887-A, Shirole Road, Off J.M. Road, Shivajinagar, Pune 411004 to transact the businesses as set out in the Notice dated 2nd December, 2020 convening the AGM.

Notice of AGM, Annual Report along with Attendance Slip & Proxy Form has been dispatched to the Members at the addresses registered with the company. Members, who do not receive the Notice of AGM and Annual Reports may request for a copy of the same by writing to the Company at "Shraddha House", CTS No. 1206A/1, Plot No. 887-A, Shirole Road, Off J.M. Road, Shivajinagar, Pune 411004. The documents pertaining to all the items of the business as to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company during business hours on any working day up to and including the date of AGM.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Company is pleased to provide its Members the facility of "remote e-voting" (i.e. e-voting from a place other than venue of AGM) for casting their votes electronically on all the resolutions as set out in the notice of AGM dated 02th December, 2020.

All the members are further informed that: 1. The Ordinary Business and the Special Business as set out in the Notice of AGM may be

- transacted through voting by electronic means.
- 2. Date of completion of dispatch of Notice of AGM and Annual Report is 08/12/2020
- 3. The e-voting period shall commence on Sunday, 27th December, 2020 (9:00 am).
- 4. The e-voting shall end on Sunday, 29th December, 2020 (5:00 pm). 5. Members holding shares and whose name appear in the Register of Members as on the
- cut-off date i.e. 23rd December, 2020, may cast their vote electronically on all the business as set out in the Notice of AGM. 6. Any person, who acquires the shares of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holds shares as of the cut-off date i.e. 23rd December, 2020, may obtain the login ID and
- password by sending a request at einward.ris@kfintech.com or jadhav_shraddha@yahoo.co.in 7. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the venue of AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.
- 8. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
- 9. A person, whose name is recorded in the register of members as on the cut-off date 23rd December 2020, only shall be entitled to avail the facility of remote e voting as well as voting at the AGM through ballot paper.
- LO. The register of member and share transfer book of the company will remain closed from Thursday, 24/12/2020 To Wednesday, 30/12/2020 (Both day Inclusive) for the purpose of 20th AGM of the company, inter alia, to adopt the audited Account of the company for the financial year ended 31st March 2020 11. In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members
- and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of www.kfintech.com or contact KFin Technologies Private Limited (Formerly known as Karvy Fintech Pvt Ltd) at the following Toll-free no.: (040) 6716 2222. In case of any grievances connected with facility for By order of the Board voting by electronic means, please the company, for Baliraja Sakhar Karkhana Limited Address: "Shraddha House", CTS No. 1206A/1,

Shivajinagar, Pune 411004 E-mail: jadhav_shraddha@yahoo.co.in Tel no: 020 67088899.

Plot No. 887-A, Shirole Road, Off J.M. Road,

Shivaji Bhagwanrao Jadhav Director **Place: Pune** Date: 08/12/2020

Share Certificate Lost

Notice is hereby given that the Certificates for the under mentioned Equity Shares of the Company have been lost and the holders of the said Equity Shares have applied to the Company to issue duplicate Share Certificates. Any person who has a claim in respect of the said Shares should lodge the same with the Company at its Registered Office within 21 days from this date else the Company will proceed to issue duplicate certificates to the aforesaid applicants without any further intimation. No of Dictinctive Nee

No.	Shareholder	Shares	From To	Nos.
851	VIJAY GUPTA SHRIBALA GUPTA	10 3	2181196 - 2181205 08847170 - 08847172	101408 142622
Vijay	Gupta, Shribala Gupt	a (Shareho	olders)	

Venkateshwara House, S.No/A/2, Pune-Sinhagad road, Pune



Stock Exchange of India Limited (the Exchange) has been declared a Defaulter under Byelaw 2(B) of Chapter XV and Expelled under Byelaw 2 of Chapter XV of the Byelaw of the Exchange. Sr. Member Name Declaration

No. Reg. No. Date INZ000200231 November 26, 2020 1 M/s Anugrah Stock & Broking Private Limited

The constituents of the aforementioned member are hereby advised to lodge claims, if any, in the prescribed claim form, against the above mentioned member within 3 months from the date of this notification. No claims filed beyond 3 months will be entertained by the Exchange against the above mentioned member, and it shall be deemed that no such claims exist against the said member. The claims filed against the above mentioned member will be dealt with in accordance with the Byelaws, Rules, Regulations and the procedures of the Exchange.

The maximum compensation limit per investor is Rs. 2 lakhs out of the Investor Protection Fund if found due and payable under the Byelaws, Rules and Regulations of the Exchange.

The claim form along with the relevant papers may be sent to the Defaulters' Committee Section of the Exchange at 'Metropolitan Stock Exchange of India Limited', Vibgyor Towers, 4th Floor, Plot No. C-62, G- Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400098. The claim form may be downloaded from https://www.msei.in or may be obtained from the corporate office of the

Exchange or the regional / branch offices of the Exchange. The authorised persons affiliated with the above mentioned member are not authorised henceforth to deal in that capacity. The list of such authorised persons is available on http://www.msei.in/ . Investors may take note of the same.

For Metropolitan Stock Exchange of India Ltd.

Senior Vice President Place: Mumbai

Defaulters' Committee Section

NDR AUTO COMPONENTS LIMITED

Date: December 9, 2020

CIN: U29304DL2019PLC347460 Registered Office: Level-5, Regus Caddie Commercial Tower, Hospitality District Aerocity, IGI Airport, New Delhi 110037

E-mail: cs@ndrauto.com WEBSITE: www.ndrauto.com NOTICE OF 15T ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE(VC)/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS(OAVM) AND E-VOTING INFORMATION

Ph: +91 9843339870-74

NOTICE is hereby given that the 1st Annual AGM of the Members of NDR Auto Components Limited will be held on Tuesday, 29th December, 2020 at 10.30 a.m. in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circulars no.14/ 2020, 17/ 2020 and 20/ 2020 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 12th May, 2020 respectively and other relevant Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI, to conduct the businesses as set out in the Notice dated 04th December, 2020, of the AGM through VC/ OAVM without the physical presence of the members at a common venue.

The electronic copy of the Notice for the AGM and Annual Report have been sent to all the members whose email IDs/addresses are registered with the Company/ Depository participants/RTA. The aforesaid documents are also available on the Company website at www.ndrauto.com, and also on the website of the Stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

The Company is providing to its members, facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means (remote e-voting). The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as the authorized agency to provide remote e-voting facility. Members are requested to click on https://www.evotingindia.com for casting the vote.

The facility of voting through electronic means will also be available at the AGM and only those members who are present in the AGM and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, will

be eligible to vote at the AGM. Information and instructions including for login, password and for e-voting forms part of Notice emailed to shareholders (Please refer Note No.17 to Notice for AGM). The details of remote e-voting are as under:

Date and time of commencement of remote e-voting: 26th December, 2020 at 9

Date and time of end of remote e-voting: 28th December, 2020 at 5 p.m. The Remote e-voting will not be allowed beyond 5 p.m. on 28th December, 2020. A person whose name appears in the Register of Members/ Beneficial Owners as on

e-voting or participation at the AGM and e-voting at the meeting. A person who becomes a member after dispatch of notice and holding shares as on the cut-off date, i.e. 22nd December, 2020 may follow the procedure as provided in the Note no.17 to the Notice of AGM.

cut-off date i.e. 22nd December, 2020 shall only be entitled to avail the facility of remote

The members who have cast their vote through remote e-voting, prior to the meeting, can attend the AGM but are not entitled to cast their vote again.

 The Board of Directors has appointed Mr. R.S. Bhatia, Company Secretary in Practice (Membership No. FCS:2599, CP No.2514) as a Scrutinizer to scrutinize the voting

process through e-voting, in a fair and transparent manner. In case of any grievances/ gueries relating to e-voting, five webcast, you may email to Mr. Punit Mittal, at investor@beetalfinancial.com at Beetal Financial & Computer Services (P) Limited or send an email at CDSL at helpdesk.evoting@cdslindia.com or call Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr.

Rakesh Dalvi (022-23058542). Members may also write to the Company Secretary at cs@ndrauto.com. SD/-

For NDR Auto Components Limited (Nitasha Sinha) **Company Secretary**

Membership No. A27439

Place: New Delhi Date: 07.12.2020

financialexp.er

"Continued payment of inment's latest affidavit on the terest (including interest on inmatter in the Supreme Court, in terest) to depositors is not only the case of State Bank of India one of the most essential bank-(SBI) alone, waiver of six ing activities but is a huge remonths' interest would comsponsibility that can never be pletely wipe out over half of the compromised as most of the bank's net worth which has acdepositors are bound to be cumulated over nearly 65 years small depositors, pensioners, etc, surviving on the interest

given succour on the debt front. interest.

the moratorium period, about all classes and categories of borrowers, the amount to be foregone would be more than ₹6 lakh crore... if the banks were to essarily wipe out a substantial and a major part of their net worth, rendering most of the banks unviable and raising a very serious question mark over their very survival. This was one of the main reasons why a waiver of interest was not even contemplated and only payment of instalments was deferred," Solicitor General Tushar

> WINSOME DIAMONDS AND JEWELLERY LIMITED Liquidator's Address - 702, Janki Centre, Dattaji Salvi Road, Off Veera Desai Road, Andheri West, Mumbai - 400 053 Contact: +91 9082156208; Email: liquidator.winsome@gmail.com

E-AUCTION UNDER INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016 Date and Time of Auction: 05th January 2021 (Tuesday) from 11:00 A.M. to 03:00 P.M. (with unlimited extension of 5 minutes each) Sale of assets owned by WINSOME DIAMONDS AND JEWELLERY LIMITED (In Liquidation) forming part of Liquidation Estate

under Section 35(f) of IBC, 2016 read with Regulation 33 of Liquidation Regulations. E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS, WHATEVER THERE IS AND NO RECOURSE BASIS". The Sale will be done by undersigned through e-auction service provider M/s E-Procurement Technologies Limited - Auction

						Amount in INR
Sr. No.	Assets	Address	Area (Each unit)	Reserve Price (Each unit)		Incremental Bid Amount (Each unit)
A.	Commercial Office Unit No. 803 to 822 & 906, 907, 908 & 910 (8th and 9th Floor) Total 24 units	Panchsheel Plaza, C.S. No 1551, Plot No. A, 55 Gamdevi Road, Mumbai – 400 007	31.9 sq. mtr.	1,13,76,247	11,37,000	90,000
В.	Commercial Office Unit No. 801 & 824 (8thFloor) Total 2 units	Panchsheel Plaza, C.S. No 1551, Plot No. A, 55 Gamdevi Road, Mumbai – 400 007	21.4 sq. mtr.	74,50,281	7,45,000	60,000
C.	Commercial Office Unit No. 802 & 823 (8th Floor)	Panchsheel Plaza, C.S. No 1551, Plot No. A, 55 Gamdevi Road,	20.2 sq. mtr.	70,30,704	7,00,000	55,000

Total 2 units Mumbai - 400 007 Note: The 28 office units bearing no. 801 to 824, 906, 907, 908 & 910 will be auctioned separately. The Area, Reserve Price,

EMD amount, Incremental Bid amount mentioned above pertains to each individual unit. Last date for submission of Eligibility Documents Last date for data room access, site visit, discussion meeting Last date for EMD submission

Tiger via website https://ncltauction.auctiontiger.net.

: 24th December 2020 (Thursday) : 29th December 2020 (Tuesday) : 29th December 2020 (Tuesday) : 05th January 2021 from 11:00 AM to 03:00 PM

Email: liquidator.winsome@gmail.com

Date and Time of E-auction The detailed Terms & Conditions, E-Auction Bid Document, Declaration & other details of online auction are available on https://ncltauction.auctiontiger.net and company website http://winsome-group.in/

In case of any clarifications, please contact the undersigned at liquidator.winsome@gmail.com

CA Amit Gupta As Liquidator of Winsome Diamonds & Jewellery Limited vide order dated 1st September 2020 IBBI Registration: IBBI/IPA-001/IP-P00016/2016-17/10040 Address: 702, Janki Center, Dattaji Salvi Road, Off Veera Date : 09thDecember 2020 Desai Road, Andheri (West), Mumbai - 400 053

OSBI

STATE BANK OF INDIA.

Place: Mumbai

State Bank of India, Retail Asset Central Processing Centre - I 5th & 6th Floor, Sharada Chambers, 386/2, Shankar Sheth Road, Pune- 37. Tel: (020) 66800501, EMAIL: racpc.pune@sbi.co.in

DEMAND NOTICE

[Under Section 13 (2) of the Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (SARFAESI Act) read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of STATE BANK OF INDIA RACPC-I, under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 & in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated mentioned below ,under Section 13 (2) of the said Act, calling upon the concerned Borrower to repay the amounts mentioned in the respective Notices; within 60 days from the date of the respective Notices, as per details given below. For various reasons these notices could not be served on the concerned borrower. Copies of these Notices are available with the undersigned; and the concerned Borrower may, if they so desire, can collect the said

copies from the undersigned on any working day during normal office hours. However, the Notice is hereby given to the concerned Borrower, wherever necessary, to pay to STATE BANK OF INDIA; within 60 days from the date of publication of this Notice the amounts indicated herein below together with further interest at contractual rates, till the date of payment, under the loan / and other agreements and documents executed by the concerned persons. As security for the borrower obligations under the said agreements and documents, the following assets have been mortgaged to

Name & Address of Borrower/ Home Branch/ Loan A/C No./ NPA Date	Date of Demand Notice	Particulars of Mortgage Property	Outstanding Amount
Mr. Dattatray Sampat Gaikwad (Borrower) Mrs. Kanchan Dattatray Gaikwad (Co-borrower) Flat No-602, 6th Floor, Building-D, "MSR Olive" S.No. 47/2/1+47/2/1A+47/3/1+47/4, Ambegaon Budruk, Taluka-Haveli, District-Pune-411046. Home Branch-Kothrud A/C No. 33049196311 SBI H L Maxgain A/C No.33086905620 Surksha NPA Date-01/04/2019	08/09/2020	All that piece and parcel of property bearing Flat No-602, 6th Floor, Building-D "MSR Olive", admeasuring area 65.76 sq. mtrs. Carpet along with adjoining Terrace area 6.41sq. mtrs. Survey No. 47/2/1+47/2/1A+47/3/1+47/4, Mouje Ambegaon Budruk, Taluka-Haveli, District-Pune. and bounded as per Schedule of Agreement to sale dated 25/03/2013.	Rs. 31,62,853.00 [Rupees Thirty One Lakh Sixty Two Thousand Eight Hundred Fifty Three only] as on 05/09/2020. Plus Future interest cost, charges

and the applicable Rules entirely at the risks of the concerned Borrower to the costs and consequences. The borrower's attention is invited to provisions of sub – section (8) of section 13 of Act, in respect of time available to redeem the secured assets. The concerned Borrower, are prohibited by the SARFAESI Act to transfer the aforesaid assets, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of the STATE BANK OF INDIA. Any contravention of the provisions of the SARFAESI Act will render the borrower, responsible for the

If the concerned Borrower shall fail to make payment to STATE BANK OF INDIA as aforesaid, then the

STATE BANK OF INDIA shall proceed against the above secured assets under Section 13 (4) of the Act

Authorised Officer Date: 09.12.2020 STATE BANK OF INDIA, (RACPC-I) Place: Pune

offence liable to punishment and / or penalty in accordance with the SARFAESI Act.

शाखा : एफ-९, न्यू सीमापुरी रोड़, दिलशाद कॉलोनी, नई दिल्ली-110095

सरफासी अधिनियम 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेत् जबकि अघोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भृति हित अधिनियम के प्रवर्तन के बैंक ऑफ इंडिया, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का 54) के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार (1) मैसर्स भारत एंटरप्राइजेज (2) श्री अतुल सिंघल (3) सुश्री संतोष सिंघल को दिनांक 24.06.2019 को मांग सूचना जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रु. 35.70.928.00 (रुपये पैतीस लाख सत्तर हजार नौ सौ अद्राईस मात्र) दिनांक 24.06.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रमार चुकौती की तिथि तक उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 05-12-2020 को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए साक्वान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया, शाखा एफ-9, न्यू सीमापुरी रोड़, दिलशाद कॉलोनी, नई दिल्ली-110095 के प्रभार वास्ते रु. 35,70,928.00 दिनांक 24.06.2019 तक और भविष्य का ब्याज, लागत इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेत् उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि एफ-196 के बेसमेंट तल में पीछे के विस्ट साइड कॉर्नर) का हिस्सा, खसरा नं. 1076/5/2/715, दिलशाद कॉलोनी, शाहदरा, नई दिल्ली-110095 में स्थित, क्षेत्रफल 58.95 वर्ग मीटर की सीमा मापन, यह सम्पत्ति सुश्री संतोष सिंघल के नाम पर शाहदरा के उप जिले में पंजीकृत, सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत, चौहदी: उत्तर में - एफ-197, दक्षिण में - सम्पत्ति नं. एफ-198 का हिस्सा, पूरब में सम्पत्ति नं. एफ–196 का हिस्सा, पश्चिम में – सर्विस लेन

दिनांक : 05-12-2020, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

बानलान इंडस्ट्राज लिमटेड (पूर्व की बोनलोन इंडस्ट्रीज (प्रा.) लिमिटेड एवं बोन लोन स्टील्स (प्रा.) लिमिटेड) 7ए/39 (12-प्रथम तल), डब्ल्यू.ई.ए. चन्ना मार्केट, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 दुरभाष : 01147532792, फैक्स : 01147532798, ई-मेल : cs@bonlonindustries.com सीआईएन : U27108DL1998PLC097397

वासी/आएवाएम के माध्यम से होने वाली 23वी वार्षिक आम बेठक यह सूचित किया जाता है कि कोविड-19 महामारी के प्रसार को देखते हुए, बी.सी. पॉवर कंट्रोल्स लिमिटेड (''कम्पनी'') की 23वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकार्य के कारबार के लिए कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) के सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 एवं एमसीए, भारत सरकार (जीओआई) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी अन्य प्रयोज्य कानुनों एवं परिपत्रों (सामृहिक रूप से परिपत्र संदर्भित) के अनुपालन में बुधवार, 30 दिसम्बर, 2020 को वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य दृश्य श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा आयोजित की जायेगी जिसे उचित समय पर भेजा जायेगा।

सदस्य पुनः ध्यान दें कि उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में तथा सरकार के गो ग्रीन इनिशिएटिव को बढ़ाने में, एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सदस्यों के पास भेजी गयी है जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदार के साथ पंजीकृत हैं। वीसी या ओएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की परिगणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम पुरा करने के उदुदेश्य से की जायेगी। यह कम्पनी पूर्व की भांति अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग की सविधा भी उपलब्ध करा रही है।

वित्त वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम की सूचना की ई-कॉपी कम्पनी की वेबसाइट www.bonlonindustries.com तथा साथ ही बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर उचित समय पर उपलब्ध होगी।

सदस्य एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित और भाग ले सकेंगे। एजीएम शामिल होने के विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना में उपलब्ध होंगे। तदनुसार कृपया ध्यान दें कि कम्पनी की एजीएम में उपस्थित होने तथा भाग लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का कोई प्रावधान नहीं है ताकि कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में सरकारी प्राधिकरणों द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन

यदि ई–मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ पंजीकृत नहीं हैं तो कृपया इसे पंजीकृत कराने की निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करके उसे पंजीकृत करा लें

भौतिक कम्पनी की 100% शेयर पंजी डी-मैट प्रारूप में है

डीमेट कपया अपने डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) से संपर्क करें और डीपी के परामर्श की प्रक्रिय **धारिता** के अनुसार अपना ई-मेल पता पंजीकृत करा लें।

सदस्य यह भी ध्यान दें कि यदि आपका ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदार के साथ पंजीकत है तो रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेत लॉगिन विवरण एजीएम की सुचना के साथ पंजीकृत ई-मेल पते पर भेज दिये जायेंगे। किन्तु जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं वे पंजीकरण हेतु उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुपालन कर सकते हैं। सदस्य ध्यान दें कि रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सुचना में भी उल्लिखित है। उपर्युक्त सूचना कम्पनी के सभी सदस्यों के पास सूचना और लाभ के लिए निर्गत की जा रही है और

यह एमसीए परिपत्र(त्रों) तथा सेबी परिपत्रों के अनुपालन में है। बोनलोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए तथा उनकी ओर से

राज जैन तिथि : 8.12.2020 (प्रबंध निदेशक) स्थान : नई दिल्ली डीआईएन : 01018724

टाटा केपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

रंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीनसुला विजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग स्ट्रिक्ट स्टेल, मुम्बई-400013. शाखा का पता : लाजपत नगर - पार्ट 2, एचडीएफसी बैंक के उपर, नई दिल्ली - 110024

प्रतिभित हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभित हित अधिनियम,

2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनिर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेत् ई-नीलामी बिक्री सूचना ऋण खाता सं. 9908478

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

(प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के तहत)

नेम्नलिखित ऋणकर्ता/सह–ऋणकर्ता को व्यक्तिगत रूप से तथा जनसामान्य को सार्वजनिक रूप से एतद्वारा सूचना दी जाती है कि टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (प्रतिभूत लेनदार) के पास गिरवीकृत नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (प्रतिभृत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, श्री प्रदीप कुमार सक्सेना कर्जदार के रूप में तथा श्रीमती अल्पना सक्सेना सह-कर्जदार के रूप में से 30 मार्च, 2020 तक कुल राशि रु. 10,52,820/- (रुपये दस लाख बावन हजार आठ सौ बीस मात्र) की वसूली हेतु ''जैसे है जहाँ है'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर 23 दिसम्बर 2020 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मुल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे वर्णित है। जबिक प्रतिभृत आस्ति का विक्रय प्रतिभृत ऋण की वसुली के लिए किया जाना है और जबिक 30 मार्च, 2020 तक

कुल राशि रु. 10,52,820/- (रुपये दस लाख बावन हजार आठ सौ बीस मात्र) समस्त लागतों, ब्याज आदि सहित बकाया है। एतद्वारा सुचना दी जाती है कि विक्रय के किसी विलम्बन/अनिरन्तरता के उपस्थित होने पर कथित सम्पत्ति का विक्रय ई-नीलामी के माध्यम से कथित 23 दिसम्बर, 2020 को 2 बजे अपराहन (नीलामी की तिथि) बी-36, प्रथम एवं द्वितीय तल, लाजपत नगर, भाग-2, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, नई दिल्ली-110024 (नीलामी स्थल) पर की जायेगी। ईएमडी, डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित सम्पत्ति की खरीद हेतु मुहरबन्द ई-नीलामी टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा 22 दिसम्बर, 2020 को 5 बजे अप. तक ग्रहण की जायेगी। सम्पत्ति की बिक्री ''जहाँ है जैसे है स्थिति'' में की जायेगी तथा कथित सम्पत्ति से सम्बद्ध दायित्व तथा दावे, जो अब तक सुनिश्चित किये गये हैं अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

١	प्रातमूत आस्ति का विवरण	(भौतिक/रचनात्मक)	आरादात मूल्य	वसहर साहा
ı	भूमि माप 55.762 वर्ग मीटर, खसरा नं. 580 के	भौतिक	रु. 9,90,008/−	रु. 99,000/−
I	भाग की भूमि के प्लॉट पर निर्मित, भुहार, वार्ड			
ı	हैदरगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226011 में स्थित			
١	का सम्पूर्ण भाग। विक्रय विलेख में उल्लिखित			
١	कॉमन सुविधाओं सहित।			
1	2 2 2	4	1	200

नीलामी के समय सामान्यतः जनसामान्य को अपनी संविदा(एं) व्यक्तिगत तौर पर जमा करने के लिए आमन्त्रित किया जाता है।

बिक्री के लिए रखी गई सम्पत्ति का विवरण अनुसूची में है। यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाये, ब्याज लागत (बिक्री लागत आदि सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो यह

ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे। यह बिक्री प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा अधीलिखित शर्तों के अधीन होगी।

ई-नीलामी बिक्री पोर्टल https://e-auction.123done.in/eauction अथवा 123done.in मोबाइल एप (एंड्रायड) के माध्यम से 23 दिसम्बर, 2020 (नीलामी की तिथि) को 2.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. के बीच 10 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार पर आयोजित की जायेगी।

1. संलग्न अनुसुची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ट जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन इस उदघोषणा में किसी गलती अथवा खामी के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से नीलामी पर प्रस्तत किया जायेगा प्रतिभत लेनदार के विवेकाधीन होगा। 2. आरक्षित मल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/- (दस हजार मात्र) होगी। 4. सम्पत्ति की खरीद के लिये जमा की गई सभी निविदाओं के साथ ''टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'' के पक्ष में देय दिल्ली में भुगतान योग्य, पता : बी-36, प्रथम एवं द्वितीय तल, लाजपत नगर-भाग 2, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, नई दिल्ली-110024, डिमांड ड्राफ्ट द्वारा धरोहर राशि संलग्न की जायेगी। असफल बोलीदाता का डिमांड ड्राफ्ट वापस लौटा दिया जायेगा। 5. उच्चतम बोलीदाता को सफल संविदाकार घोषित किया जायेगा बशर्ते वे कानुनी रूप से बोली करने के लिये योग्य हों तथा उनके द्वारा जमा राशि आरक्षित मूल्स से कम नहीं हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को अस्वीकार कर सकते हैं। 6. दर्ज कारणों से प्राधिकृत अधिकारी को स्वेच्छा से बिक्री को स्थगित करने/ रोकने का अधिकार है। 7. सम्पत्ति का निरीक्षण 22 दिसम्बर. 2020 (निरीक्षण की तिथि) को 11 बजे पर्वा. से 5.00 बजे सायं तक किया जा सकता है। 8. क्रेता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति को प्राधिकृत अधिकारी के पास तत्काल ऐसी घोषणा के पश्चात 24 घण्टों के भीतर पच्चीस प्रतिशत क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा तथा उसमें विफल होने पर सम्पत्ति की फिर से निजी संधि द्वारा नीलामी/बिक्री की जायेगी। 9. यदि उपरोक्त रूप में आरंभिक जमा की जाती है तो शेष क्रय मूल्य का भुगतान क्रेता को सम्पत्ति की बिक्री की पृष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर, उस दिन को छोड़कर, अथवा यदि 15वाँ दिन अवकाश या रविवार होता है तो पन्द्रवें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस में प्राधिकत अधिकारी के पास करना होगा। 10. उपर्युक्त निर्धारित अविध में भुगतान में चुक करने की स्थिति में सम्पत्ति को निजी सन्धि द्वारा नयी नीलामी/बिक्री पर रखा जायेगा, ईएमडी सहित जमा राशि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जब्त कर ली जायेगी तथा चुककर्ता क्रेता का सम्पत्ति पर सभी प्रकार का दावा समाप्त हो जायेगा। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को सम्पत्ति के प्रति देय अधिभारों की जानकारी का विवरण शन्य, सम्पत्ति पर रखे गये दावे अथवा उस प्रकृति एवं मुल्य के अन्य ज्ञात विवरणों: शुन्य उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ नहीं। 12. अन्य विवरणों, सहायता अथवा ऑनलाइन ई-नीलामी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता हमारे विक्रय एवं विपणन के क्लाइंट सेवा प्रदाता (सीएसडी) विभाग तथा ई-सेवा प्रदाता मैसर्स ऑजियो एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, पता : 8वीं मंजिल, इथम टॉवर ए, प्लॉट सं. 4डी नोएडा (उ.प्र.)-201301 (भारत) से इसके मोबाइल नं. 7428993227 (श्री देब ज्योति रॉय) ई-मेल आईडी : Debjyoti.r@123done.in पश्चिम)/सम्पर्क व्यक्ति का नाम : श्री शादाब अख्तर मोबाइल : 7428993234 ई-मेल आईडी : Shadab.a@123done.in (उत्तर एवं पूर्व)/सम्पर्क व्यक्ति का नाम श्री दुराई मुरुगन एस मोबाइल : 9841638849 ई-मेल आईडी Duraimurugan.s@123done.in अथवा अरिजीत भट्टाचार्य से ई-मेल आईडी : arijit.bhatt@tatacapital.com तथा मोबाइल नं. 9029073280 से सम्पर्क कर सकते हैं। कृपया अपनी पृछताछ ह्वाटुसएप नम्बर

स्थान : दिल्ली श्री अरिजित भट्ट -अधिकृत प्राधिकारी तिथि : 07.12.2020 टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

9029073280 पर करें। 13. उपर्युक्त विवरण के लिए प्रतिभृत लेनदार की वेबसाइट https://bit.ly/2PJHD0J

contents. The Indian or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in

Notice is hereby given that Share Cert. no 224984 for 4340 shares with Dist. No. 188132776- 188137115 under Folio DBL0224984 in name of Gautam Bhattacharya and Neeladri Bhattacharva in books of Dalmia Bharat Ltd. regd. off. at Dalmiapuram, Dist. Tiruchirapalli, Tamil Nadu had been lost. Any person(s) has/have claim on said shares should lodge such claim with Co. or its RTA Kfin Tech Pvt. Ltd. at Selenium, Tower-B, Plot No.31-32, Financial Dist., Serilingampally, Hyderabad-500032, within 15 days from date of this notice, after which Co. will proceed to issue Duplicate Share Certificate(s) to the registered holder(s). **GAUTAM BHATTACHARYA**

फ्यूलटेन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड Fullerton India कॉर्पोरेट कार्या: सुप्रीम बिजनेस पार्क, 5 एवं 6ठा तल, बी विंग, पवई, मुम्बई 400076

मांग सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 ("नियमावली") के प्रावधानों के अंतर्गत

अधिनियम के अंतर्गत फ्यूलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड (एफआईसीसीएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सचना जारी कर अधोलिखित ऋणधारकों को उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। अधोहस्ताक्षरी का मानना है कि ऋणधारक मांग सूचना(ओं) की अनदेखी कर रहे हैं, अतः नियमों के अनुसार एफिक्शेसन तथा प्रकाशन द्वारा सूचना जारी की जा रही है। मांग सूचना का विषय वस्तु इस प्रकार है:

का नाम	राशि	का विवरण
 श्री कँवरजीत सिंह कोच्चर नवनीत कौर कोच्चर पवनीत सिंह कोच्चर मै. टौरस इन्टरनेशनल प्रॉजेक्ट्स प्रा.लि. खाता सं.: 173026300000640 	5.11.2020 4.11.2020 को रु. 33898218/-	ग्राम महिपालपुर, नई दिल्ली की विस्तारित आबादी में स्थित खसरा नं. 388 में से निर्मित सम्पत्ति सं. ए-385, रोड नं. 3, ए ब्लॉक, क्षेत्रफल माप 350 वर्ग यार्ड्स की सम्पत्ति।
क्याभारकों को सलाह ही जाती है कि	गांग सन्तवाओं का अवणलव करें वर्	ग भगवान की तमली वक लाग दर पर

ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउन्स चार्जेज, लागत तथा खर्चे के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर मांग सूचना की उपरोक्त राशि का भुगतान करें। ऋणधारक ध्यान रखें कि एफआईसीसीएल एक प्रतिभूत क्रेडीटर है तथा ऋणधारकों द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा ऋणधारकों द्वारा गिरवी रखी गई सम्पत्ति/परिसम्पत्तियों जो कि प्रतिभृत ऋण है, के प्रति एक प्रतिभत ऋण है।

यदि ऋणधारक निर्धारित समय के भीतर अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित नहीं करते हैं तो एफआईसीसीएल भुगतान की वसुली करने के लिये अधिनियम तथा नियम के अंतर्गत बिक्री अथवा अन्य उपचार के द्वारा उसके अंतरण के अधिकार सिहत प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का कब्जा करने के लिये अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत सभी अधिकारों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत होगा। एफआईसीसीएल बिक्री अथवा अंतरण के अधिकार को प्रवर्तित करने से पूर्व प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को एटैच एवं/अथवा सील करने के लिये भी अधिकृत होगा। प्रतिभृत परिसम्पत्तियों की बिक्री के उपरांत एफआईसीसीएल को यदि उसे देय सम्पूर्ण बकाये की वसूली प्राप्त नहीं होती है तो शेष बकाए की वसूली करने के लिए एफआईसीसीएल को अलग से कानूनी कार्रवाई शुरू करने का भी अधिकार है। यह उपचार किसी अन्य कानन के अंतर्गत एफआईसीसीएल को उपलब्ध अन्य सभी उपचारों के अतिरिक्त तथा

ऋणधारकों का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(8) तथा पुनः अधिनियम की धारा 13 (13) के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके द्वारा ऋणधारक एफआईसीसीएल की लिखित अनुमित प्राप्त किए बिना किसी भी प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का (व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया को छोड़कर) बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से व्यवसाय अथवा प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का निपटारा अथवा अंतरण करने से प्रतिबंधित किए गए हैं तथा उपरोक्त की अवज्ञा उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। मांग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है तथा ऋणधारक, यदि ऐसा चाहे किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि के दौरान उसे अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकते हैं। स्थानः दिल्ली हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

फ्यूलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड तिथि: 9.12.2020

सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

जेम बैटरीज प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ				
सुसंगत विशिष्टियाँ				
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	जेम बैटरीज प्राइवेट लिमिटेड		
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	13 अगस्त, 2003		
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली		
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U31909DL2003PTC121756		
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय : बी- II/11, मोहन इंडस्ट्रियल एस्टेट, बदरपुर, नई दिल्ली-110044		
6.	कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	4 दिसम्बर, 2020		
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया प्रारम्भ होने की तिथि से 180 दिन		
8.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर			
9.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	पता : 58–बी, पॉकेट–4, मयूर विहार, फेज–1, दिल्ली–110094 ई–मेल : cppumba2409@gmail.com		
10.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई–मेल	पत्राचार का पता : 812, इंद्र प्रकाश बिल्डिंग, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली- 110001 ई-मेल : ip.gemcirp@gmail.com		
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि	22 दिसम्बर, 2020		
12.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप- धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो			
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	1. अप्रयोज्य 2.		
14.	(क) सम्बन्धित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है :	चेब लिंक : www.ibbi.aov.in भौतिक पता : अप्रयोज्य		
	एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने जेम बैटरीज प्राइवेट लिमिटेड के			

विरुद्ध दिनांक 4 दिसम्बर, 2020 को कॉर्पोरेट ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश

जेम बैटरीज प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 22 दिसम्बर, 2020 को अथवा इससे पूर्व अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के सम्मुख सूचीबद्ध श्रेणी के रूप में वित्तीय लेनदार प्रपत्र सीए में श्रेणी (अप्रयोज्य) के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के सम्मुख सूचीबद्ध तीन ऋणशोध अक्षमता प्रोफेशनलों में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि सूचित करेंगे। दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तित दण्डनीय होगी।

अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का नाम तथा हस्ताक्षर : चन्द्र प्रकाश तिथि एवं स्थान : ७ दिसम्बर, २०२०, नई दिल्ली

जेनोमिक वैली बायोटेक लिमिटेड

पंजी. कार्या.: 4 कि.मी. स्टोन, बेरी छर्रा रोड, ग्राम खेरका मुसलमान, पी.ओ. टंडाहेरी, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा-124507, CIN:L01122HR1994PLC033029; टेली.:+91-9811341542

ई-मेल :genomicvalley@gmail.com; http://www.genomicvalley.com पर मिलें वार्षिक साधारण सभा ई-वोटिंग तथा पस्तक बंद होने की सचना एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि जेनोमिक वैली बायोटेक लिमिटेड की 26वीं वार्षिक साधारण सभा (''एजीएम' गुरुवार 31 दिसम्बर, 2020 को 11.00 बजे पूर्वा. में 4 कि.मी. स्टोन, बेरी छर्रा रोड, पी.ओ. टंडाहेरी, तह. बहादुरगढ़

जिला झज्जर, हरियाणा-124507 में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी। 31.03.2020 को समाप्त वित्त वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सचना व्यक्तिगत रूप से ऐसे सदस्यों को प्रेषित कर दी गई है जिनके ईमेल आईडी ज कम्पनी/रजिस्टार एंव अंतरण एजेन्ट के पास पंजीकत हैं तथा उसकी भौतिक प्रतियां ऐसे सभी सदस्यों को स्वीकृत पद्धति में उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई है जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं तथा वह कम्पनी की वेबसाईट www.genomicvalley.com पर उपलब्ध है।

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) निमयावली, 2014 के नियम 10 तथा सेबी (सुचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शुक्रवार, 25 दिसम्बर, 2020 से गुरुवार, 31 दिसम्बर, 2020 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे। सदस्यों को सचित किया जाता है कि कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली. 2014 के नियम 20 के साथ पठित

अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनपालन में यह कम्पनी 24.12.2020 (कट-ऑफ तिथि) को भौतिक अथवा डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले अपने सदस्यों को सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-वोटिंग सेवा के माध्यम से निष्पादित होने वाले व्यवसाय पर इलेक्ट्रानिक माध्यमों से मतदान करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिये सदस्यों को सहर्ष ई–वोटिंग सेवाऐं उपलब्ध करा रही है।ई– वोटिंग के निर्देश एजीएम की सुचना में दिये गये हैं। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विवरण इस प्रकार है: क) सूचना के प्रेषण की पूर्णता की तिथिः मंगलवार, 8 दिसम्बर, 2020

ख) ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि एवं समयः सोमवार, 28 दिसम्बर, 2020 को 9.00 बजे पूर्वा. से ग) ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि एवं समयः बुधवार, 30 दिसम्बर, 2020 को 5 बजे अप. में। ऐसे सदस्यों जिनके पास इलेक्ट्रानिक वोटिंग सुगम नहीं है, के लिये एजीएम की सुचना के साथ भौतिक मत पत्र भेजी

गई है। विधिवत पूर्ण भौतिक मत पत्र उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी के पास 30 दिसम्बर, 2020 को 5.00 बजे अप. तक पहुंच जाना चाहिए। सदस्य ध्यान रखें कि 30 दिसम्बर. 2020 को 5 बजे अप. के बाद इलेक्टानिक पद्धति में मतदान स्वीकृत नहीं होगी। स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई-वोटिंग तथा भौतिक बैलॅट प्रक्रिया का संचालन करने के लिये कम्पनी ने श्री रोहित बाथम, कार्यरत कम्पनी सचिव, नई दिल्ली को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

एजीएम स्थल पर बैलॅट/मत पत्र के द्वारा ई-वोटिंग सविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों जिन्होंने ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किये हों, वे सभा में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने ई-वोटिंग द्वारा पूर्व में अपना मतदान कर दिये हों वे सभा में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन एजीएम में फिर से मतदान की अनमति उन्हें नहीं दी जायेगी।

जो व्यक्ति वार्षिक रिपोर्ट के प्रेषण के बाद किन्तु कट-ऑफ तिथि से पूर्व कम्पनी का सदस्य बनते हैं, वे genomicvalley@gmail.com पर अनुरोध भेज कर यूजर आईडी एवं पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, यदि ऐसे सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिये सीडीएसएल में पहले से ही पंजीकृत हैं तो मतदान करने के लिये वे अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। डलेक्टॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया एवं तरीके से संबंधित किसी भी समस्या के लिये सदस्य एजीएम की सचना में निर्देशों

को पढ़ें अथवा सीडीएसएल की वेबसाईट www.evotingindia.com देखें तथा ई-वोटिंग संबंधी किसी प्रश्नों या समस्याओं के लिये आप सहायता खंड के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा ई-वोटिंग मैन्युअल देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें या 18002005533 पर कॉल करें अथवा श्री नितिन कुण्डेर (022–23058738) या श्री मेहबूब लखानी (022–23058543) या श्री राकेश डाल्वी (022–23058542) से सम्पर्क करें। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान से संबंधित सभी समस्याएं श्री राकेश डाल्वी, प्रबंधक (सीडीएसएल), सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वाँ तल, मैराथन फ्यूचुरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउण्ड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुम्बई-400013 को संबोधित करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें या 022-23058542/43 पर या 18002005533 पर कॉल करें। सदस्यगण उपरोक्त ईमेल आईडी अर्थात- genomicvalley@gmail.com पर या पंजीकृत कार्यालय के पते पर लिखें। बोर्ड के आदेश से

जेनोमिक वैली बायोटेक लिमिटेड के लिये

स्थानः हरियाणा तिथि: 08.12.2020 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CAPITAL

PROTECTING INVESTING FINANCE ADVISING आदित्या बिरला हाउसिंग फाइनेंस लि.

पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेयॉन कम्पाउंड, वेरावल, गुजरात ३६२ २६६ शाखा

अचल सम्पत्तियों के बिक्री के लिए बिक्री सूचना वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 संपठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के प्रावधान के तहत ई-नीलामी

एतदद्वारा जनसाधारण को सामान्य रूप से एवं ऋणी तथा जमानतकर्ता को विशेष रूप से यह सुचित किया जाता है कि निम्नलिखित अचल सम्पत्ति / बंधक / प्रभारयुक्त सम्पत्ति को, जिसे आदित्या बिडला हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा लिया गया है, को आदित्य बिडला हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी द्वारा निम्नलिखित खाते में दिनांक 30-नवम्बर-2020 तक बकाया रू 59,65,023.28/- (रूपये उनसठ लाख पैसठ हजार तेईस व अटठाईस पैसे मात्र) एवं पूर्ण भूगतान करने की तिथि तक अग्रिम ब्याज तथा अन्य खर्चे की ऋणकर्ता (ओं) एवं सह-ऋणकर्ता (ओं) जिनके नाम श्री सरबजीत सिंह, रे बकाया वसुली के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा "जो है जहाँ है, जो है जैसे है एवं जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक 26/12/2020 को बिक्री का प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। आरक्षित मूल्य रूपये 28,01,887 / – (रूपये अटठाईस लाख एक हजार आठ सौ सत्तासी मात्र) एवं अग्रिम घनराशि (ईएमडी) रू 2,80,188 / - (रूपये दो लाख अस्सी हजार एक

बंधक सम्पत्तियों का विवरण

फ्लैट नम्बर 1703, 16वां तल, टावर—टी3, युनीटेक होराइजन एस्टेट, सेक्टर—पाई—2, ग्रेटर नोएडा - 201301, सुपर एरिया 1740 वर्ग फुट

सौ अटठासी)। ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 24/12/2020 बिल्डिर चार्जज

बिक्री के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाईनेन्र लिमिटेड की वेबसाइट का अवलोकन करें. https://homefinance.adityabirlacapital.com/properties for-auction-under-sarfaesi-act or https://sarfaesi.auctiontiger.net सम्पर्कःश्री त्ंग ध्वज कौशिक - 9873662400, श्री पंकज राणा — 7065748080, श्री मनदीप लुथरा — 09930879657 प्राधिकत अधिकारी तेथि : 09.12.2020) स्थान : ग्रेटर नोएडा यूपी | आदित्य बिडला हाउसिंग फाईर्नेन्स लिमिटेड

इंडिया रिसर्जेन्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड India RF

कब्जा सचना (नियम 8(1) (परिशिष्ट चतुर्थ)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, मैसर्स इंडिया रिसर्जेन्स एआरसी प्राडवेट लिमिटेड (आईआरएआरसी) एक रिकंस्ट्क्शन कंपनी (भारतीय रिर्जव बैंक के साथ पंजीकृत पंजीकृत कार्यालय: तृतीय तल, युनिट नंबर 304, पिरामल टॉवर, पेनिन्सुला कॉर्पोरेट पार्क लोअर परेल, मुंबई-400013 (बाद में "आडआरएआरसी" के रूप में संदर्भित) के प्राधिकत अधिकारी, द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हिर (प्रवर्तन) नियमवाली (2002 का 54) की धारा 13(12) के साथ पठित नियम 3 के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत दिनांक 11.06.2020 को 1. मैसर्स जे.एस. टेडर्स एक प्रोपराइटरशिप फर्म, अपने प्रोपराइटर श्री जयबीर सिंह के माध्यम से **कार्यालय :** यूवीबी-011, उद्योग विहार, बिल्डिंग मैटीरियल मार्केट, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201308, **2. सुदेश कुमार** पुत्र हरशरण सिंह, **निवासी** : मकान नं. 153, बीटा-2 ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201308, 3, जयबीर सिंह, पुत्र हरि सिंह निवासी: युवीबी-011, उद्योग विहार, बिल्डिंग मैटीरियल मार्केट, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश-201308, देय राशि रू. 1,27,40,245,75, (तथा **दिनांक 20,05,2020** से आगे का व्याज) व अन्य खर्चे सुचना मिलने के 60 दिन के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया गया था। शेष रकम का भगतान नहीं करने पर एतद द्वारा विशेषतय कर्जदार को एवं सामान्यत जनसाधारण को सुचित किया जाता है कि प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अधिनियम 13 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले उप–धारा 4 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 06.12.2020 को कब्जा ले लिया गया है। खासकर कर्जदार एवं जनसाधारण को एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि इन सम्पत्ति(यों) का लेन-देन न करें तथा इस सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन "आइआरएआरसी" को

पुरक्षित संपत्ति के एवज में उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उप-धा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्त्ता का ध्यान आमंत्रित किया गया है।

दिनांक 20.05.2020 तक देय रू. 1,27,40,245,75 तथा आगे का ब्याज व अन्य

अचल सम्पत्ति का विवरण युवीबी-011,(प्लॉट नं, बी-11, ब्लॉक-युवी), क्षेत्रफल 120 वर्ग गज, उद्योग विहार स्थित बिल्डिंग मैटीरियल मार्केट, ग्रेटर नोएडा, गाँतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश के सभी भाग प्राधिकृत अधिकारी स्थान : नोएडा इंडिया रिसर्जेन्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड

EDDAL

विनांक : 06,12,2020

खर्चे के भगतान के अनुरूप होगा।

कम्पनी के सदस्यों के ध्यानार्थ सुचना एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी की 43वीं वार्षिक साधारण सभा (''एजीएम'') बुधवार 30 दिसम्बर, 2020 को 3.00 बजे अप. आईएसटी में कम्पनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम" तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा एमसीए द्वारा जारी सर्क्यूलर्स के लागू होने वाले प्रावधानों वे अनुपालन में विडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वार आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम आमंत्रण सुचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा

संबंधित सर्क्युलर्स के अनुपालन में एजीएम की सूचना (''सूचना'') तथा कम्पनी का वार्षिक रिपोर्ट 7 दिसम्बर, 2020 को कम्पनी के ऐसे सदस्यों को भेज दिया गया है जिनके ईमेल पते कम्पनी में पंजीकृत हैं। उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रति www.evotingindia.com पर सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाईट पर भी यह कम्पनी अपने सदस्यों को इलेक्टॉनिक माध्यमों (''ई-वोटिंग'') द्वारा एजीएम में पारित होने वाले प्रस्तावों पर

मताधिकार के प्रयोग की सुविधा उपलब्ध करा रही है। सदस्य रिमोट ई–वोटिंग द्वारा यहां नीचे वर्णित तिथि को सीडीएसएर

की इलेक्टॉनिक वोटिंग प्रणाली ("रिमोट ई-वोटिंग") का उपयोग कर अपना मतदान कर सकते हैं। ्पनः एजीएम के दौरान भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी तथा एजीएम मे शामिल होने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किये हों, वे सूचना में निर्दिष्ट तरीके (''निर्दिष्ट तरीके'') में एजीएम में मतदान करने में सक्षम होंगे।

जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन एजीएम में फिर से मतदान के लिये अधिकत नहीं होंगे। ई-वोटिंग से संबंधित युजर आईडी एवं पास्वर्ड के विवरणों सिहत सूचना तथा निर्देश सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेज दिये गये हैं। लेकिन, सभा में शामिल होने के लिये सदस्यों को लिंक https://us02web.zoom.us/j/84488809379 का

आपकी कम्पनी आपको सीडीएसएल के माध्यम से सहर्ष रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है ताकि आप एजीएम

की सूचना में वर्णित व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने में सक्षम हो सकें। रेमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 27 दिसम्बर, 2020 को 9.00 बजे पुर्वा

में शुरू होगी तथा मंगलवार, 29 दिसम्बर, 2020 को 5.00 बजे अप. 🥫 उसके बाद ई-वोटिंग के लिये रिमोट ई-वोटिंग निष्क्रिय कर दी जायेगी जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 4 नवम्बर, 2020 को कम्पनी द्वारा संबंधित आरओएम में दर्ज होगा

केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में शामिल होने तथा एजीएम के दौरान मतदान की सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे। यदि एजीएम में शामिल होने तथा ई-वोटिंग प्रणाली से ई-वोटिंग संबंधी कोई प्रश्न या समस्या हो तो आप सहायता खंड के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध Frequently Asked Questions ("FAQ's) तथा ई-वोटिंग मैन्युअल देखें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें या श्री नितिन कुण्डेर (022-23058738) या श्री राकेश डाल्वी (022-23058542) या श्री मेहबूब लखानी (022-23058543) से सम्पर्क करें। बोर्ड के आदेश र

एस्कोर्ट्स डीलर्स डेवलपमेन्ट एसोसिएशन लिमिटेड CIN: U51909HR1901PLC008636 पंजी. कार्यालयः 18/4, मथुरा रोड, फरीदाबाद् हरियाणा-121007

ई-मेलः statutoryfiling@escorts.co.in

फोनः 0129-2225216

ट्रिलेनियम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : एच-40, मोती बाग-2, मिनी मार्केट, नानक पुरा, नई दिल्ली-110021 सीआईएन : U74899DL1992PLC051008; ई-मेल : trillenitech@yahoo.co.in

एस्कोर्ट्स डीलर्स डेवलपमेन्ट

एसोसिएशन लिमिटेड के लिए

शेनु अगरवाल

स्थानः गुड़गाव

तिथिः ८ दिसम्बर, २०२०

एतद्वारा सचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं उसके तहत निर्मित नियमों के प्रयोज्य प्रावधानों तथा कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020 तथ 20/2020 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 (एमसीए परिपत्र) के अनपालन में सदस्यों की किसी कॉमन स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना कम्पनी की अटठाईसर्व (28वीं) वार्षिक आम बैठक बृहस्पतिवार, 31 दिसम्बर, 2020 को 2.00 बजे अप. वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य दृश्य श्रव्य साधनों (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से आयोजित की जायेगी। वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 सहित एजीएम की सचना केवल उन सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते उपर्युक्त एमसीए परिपत्र के अनुसार कम्पनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 कम्पनी की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध होगी। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही बैठक में उपस्थित हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक मे

करने के उददेश्य से की जाएगी। हम उन सभी शेयरधारकों से निवेदन हैं जिन्होंने अपने ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी के साथ अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं कराए वे बिना किसी बाधा के सभी सूचनाएं उचित समय पर प्राप्त करने हेत् ऐसा कर लें। रिकार्ड में ई-मेल पते अपडेट कराने से हमें आपसे विशेष रूप से इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सम्पर्क करने में सहायता मिलेगी। इस उद्देश्य से, हम उन शेयरधारकों से, जिन्होंने अपर ई-मेल पते तथा स्थायी खाता संख्या अपडेट नहीं कराए हैं वे निम्नलिखित लिंक का अनुपालन कर के तथा अपने फोलियो नं./डीपी/क्लाइंट आईडी, प्रमाणपत्र सं., पैन, मोबाइल नं. ई-मेल आईडी का उल्लेख करते हुए एवं अपने पैन कार्ड/आधार/वैध पासपोर्ट/शेयर प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्नलिखित लिंक का अनुपालन करके इसे अपडेट करा सकते हैं :

उपस्थित होने वाले सदस्यों की परिगणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम पुर

डिमैट धारिता जिन सदस्यों के पास कम्पनी इक्विटी शेयर डीमैट प्रारूप में हैं और जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं वे इसे कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

सदस्यों के ई-मेल आईडी तथा बैंक विवरण के पंजीकरण की प्रक्रिया :-

मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ लिंक http://linkintime.co.in/emailreg/email register.htm' पर क्लिक कर-के और उसमें निर्देशित प्रक्रिया का अनुपालन करके अस्थायी रूप से पंजीकृत करा सकते हैं। किसी पूछताछ के लिए सदस्य मैसर्स लिंक इनटाइम के पास rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर ई-मेल भेज सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि अपने डीमैट खाते में ई-मेल पते तथा बैंक विवरण के स्थायी पंजीकरण हेतु सदस्य संबद्ध डिपॉजिटरी भागीदार ('डीपी') से सम्पर्क करें और डीपी द्वारा निर्देशित पंजीकरण प्रक्रिया का अनुपालन करें।

कम्पनी के इक्विटी शेयर भौतिक प्रारूप में धारण करने वाले तथा जिन्होंने अपने ई-

मेल पते तथा/अथवा बैंक खाता विवरण पंजीकृत नहीं कराया है वे इसे कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ लिंक http://linkintime.co.in/emailreg/email register.html पर क्लिक करके और उसमें निर्देशित पंजीकरण प्रक्रिया का अनुपालन करके पंजीकृत करा सकते हैं। किसी पूछताछ के लिए सदस्य मैसर्स लिंक इनटाइम के पास rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर ई-मेल भेज सकते हैं।

यह आपकी सूचना तथा रिकार्ड के लिए है। उपर्युक्त मामले पर किसी पूछताछ के लिए, कम्पनी के शेयरधारक निम्नलिखित से सम्पर्क करें :

मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,

तिथि : 08.12.2020

स्थान : नई दिल्ली

नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट नं. एनएच-2, सी-1, ब्लॉक, एलएससी, निकट सावित्री मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 दूरभाष : 011-41410592/93/94, टेलीफैक्स : 011-41410591, ई-मेल

delhi@linkintime.co.in निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ट्रिलेनियम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

राता फाइनास एड लाजिंग लामटड (पूर्व में रीता होल्डिंग्स लिमिटेड विदित)

(CIN:L67120DL1981PLC011741) पंजी. कार्या.: 324 ए, 3रा तल, अगरवाल प्लाजा, सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 फोनः 011-27860681 । ईमेलः ritaholdingsltd@gmail.com । वेबसाईटः www.ritaholdings.in

असाधारण आम सभा का सूचना एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि मै. रीता फाइनांस एंड लीजिंग लिमिटेड (पूर्व में रीता होल्डिंग्स लिमिटेड विदित) (''कम्पनी'')के सदस्यों की असाधारण आम-सभा (''सभा'') सोमवार, 4 जनवरी, 2021 को 2.00

बजे अप. में 324 ए. III रा तल, अगरवाल प्लाजा. सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 में आयोजित की जायेगी। सभा के आयोजन की सचना सदस्यों को करियर द्वारा उनके पंजीकृत पते पर तथा ऐसे सदस्यों जिन्होंने कट-ऑफ तिथि अर्थात् 27 नवम्बर, 2020 को डिपॉजिटरी/कम्पनी के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत कराये हैं को उनके पंजीकत ई-मेल पते पर भेज दी गई है तथा यह प्रेषण 8 दिसम्बर, 2020 को परा कर लिया गय

है। यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट (www.ritaholdings.in) पर उपलब्ध है। यह कम्पनी सभा में पारित किये जाने के लिये पुस्तावित पुस्तावों पर इलेक्टॉनिक माध्यमों (''ई-वोटिंग'' द्वारा अपने मताधिकार के प्रयोग की सुविधा सदस्यों को उपलब्ध करा रही है। अन्य बातों के अलावे सभा के आयोजन की सूचना की प्रति के साथ यूजर आईडी एवं पास्वर्ड से शामिल रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित सूचन सदस्यों को प्रेषित कर दी गई है। ई-वोटिंग की सूचना का प्रारूप कम्पनी की वेबसाईट www.ritaholdings.in तथा एनएसडीएल की वेबसाईट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा शुक्रवार, 01 जनवरी, 2021 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा रविवार, 3

जनवरी. 2021 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनमर्ति जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि (अभिलिखित तिथि) अर्थातु सोमवार, 28 दिसम्बर, 2020 के

सदस्यों/लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में उपलब्ध होगा. केवल वे हीं रिमोट ई-वोटिंग/सभा में वोटिंग र्क सविधा प्राप्त करने के लिये अधिकत होंगे। यदि कोई व्यक्ति सभा की सचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि को शेय धारित करते हैं, वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर अन्य बातों के अलावे युजर आईडी एव

पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यूजर आईडी एवं पास्वर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया सभा की सूचना में दी गई है जो कम्पनी की वेबसाईट तथा एनएसडीएल की वेबसाईट पर उपलब्ध है। यदि सदस्य ई-वोटिंग के लिये एनएसडीएल में पहले से हीं पंजीकृत हैं तो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान के लिये वे अपने वर्तमान यजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों वे भी सभा में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन

बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर से

रीता फाइनांस एंड लीजिंग लिमिटेड



फिर से मतदान के लिये अधिकृत नहीं होंगे।

हॉस्पिटैलिटी एयरोसिटी, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110037 दूरभाष : +91 9843339870-74 ई-मेल : cs@ndrauto.com वेबसाइट : www.ndrauto.com वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य दृश्य श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) तथा ई-वोटिंग के

माध्यम से आयोजित होने वाली पहली वार्षिक आम बैठक की सूचना एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रयोज्य प्रावधानों तथा कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 क्रमशः दिनांक अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 12 मई, 2020 एवं अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और सेबी के अनुपालन में एजीएम की सचना दिनांक 4 दिसम्बर, 2020 में निर्धारित प्रकार्य के संचालन हेत किसी कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना एनडीआर ऑटो कम्पोनेंटस लिमिटेड के सदस्यों की पहली

प्रातः आयोजित की जाएगी। . एजीएम तथा वार्षिक रिपोर्ट की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति उन सभी सदस्यों के पास भेजी जा चुकी है जिनके ई-मेल अईडी/पते कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदारों/आरटीए के साथ पंजीकृत हैं। उपर्युक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.ndrauto.com, तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। कम्पनी एजीएम में पारित होने वाले प्रस्तावित संकल्पों पर अपने मताधिकार का उपयोग करने की

वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से मंगलवार, 29 दिसम्बर, 2020 को 10.30 बजे

सविधा इलेक्टॉनिक साधनों (रिमोट ई-वोटिंग) द्वरा उपलब्ध करा रही है। कम्पनी ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत एजेंसी के रूप में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की सेवाएं ग्रहण की हैं। सदस्य कृपया मतदान करने के लिए https://www.evotingindia.com पर क्लिक करें।

. इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी और जो सदस्य एजीएम में उपस्थित होंगे और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर मतदान नहीं किया है तथा उन्हें ऐसा करने से वंचित नहीं किया गया है, वे एजीएम के दौरान मतदान करने के पात्र होंगे।

5. ई-वोटिंग हेत लॉगिन, पासवर्ड सहित सचना तथा निर्देश और ई-वोटिंग प्रपत्र शेयरधारकों को ई-

मेल कर दिये गये हैं। (कृपया एजीएम की सूचना की नोट सं. 17 का संदर्भ लें) 5. रिमोट ई-वोटिंग का विवरण निम्न प्रकार है : • रिमोट ई-वोटिंग प्रारम्भ होने की तिथि एवं समय : 26 दिसम्बर, 2020 को 9 बजे प्रातः

• रिमोट ई-वोटिंग की अन्तिम तिथि एवं समय : 28 दिसम्बर, 2020 को 5 बजे अप. 28

दिसम्बर, 2020 को 5 बजे अप. के उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी। . कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि 22 दिसम्बर, 2020 तक सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है केवल वे रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने अथवा एजीएम में भाग लेने तथ बैठक में ई-वोटिंग करने के पात्र होंगे।

8. कोई व्यक्ति जो सूचना भेजे जाने के उपरान्त सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि अर्थात 22 दिसम्बर, 2020 तक शेयर धारण करता है वह एजीएम की सुचना के नोट सं. 17 में प्रावधानित प्रक्रिया का अनुपालन कर सकता है।

 जिन सदस्यों ने बैठक से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर लिया है वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं किन्तु वे पुनः मतदान के पात्र नहीं होंगे। 10. निदेशक मंडल ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान प्रक्रिया की संवीक्ष

2514) को संवीक्षक नियुक्त किया है। 1. ई-वोटिंग, लाइव वेबकास्ट से सम्बन्धित किसी शिकायत/पूछताछ के लिए आप श्री पुनीत मित्तल को investor@beetalfinancial.com पर बीटल फाइनेंशियल एण्ड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड के पास ई-मेल कर सकते हैं या सीडीएसएल के पास helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल कर सकते हैं या श्री नितिन कुन्दर (022-23058738) अथवा श्री महबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश दलवी

के लिए श्री आर.एस. भाटिया, कार्यरत कम्पनी सचिव (सदस्यता सं. एफसीएस : 2599, सीपी सं.

(022-23058542) को कॉल कर सकते हैं। सदस्य कम्पनी सचिव के पास cs@ndrauto.com पर भी लिख सकते हैं।

कृते एनडीआर ऑटो कम्पोनेंट्स लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 07.12.2020

कामा हाल्डिंग्स लिमिटेड

(CIN: L92199DL2000PLC104779)

सदस्यता सं. : ए२७४३९ KAMA Holdings

(निताशा सिन्हा

पंजीकृत कार्यालयः द गैलेरिया, डीएलएफ मयूर विहार, यूनिट नं. 236 एवं 237, 2रा तल, मयूर विहार प्लेस, नोएडा लिंक रोड, मयूर विहार फेज 1 एक्स्टें., दिल्ली-110091 कॉर्पोरेट कार्यालयः ब्लॉक सी, सेक्टर 45, गुड़गाँव- 122003 टेली. नं. (+91-124) 4354400, फैक्सः (+91-124) 4354500

ई-मेलः info@kamaholdings.com, वेबसाईटः www.kamaholdings.com सचना - निवेशक शिक्षा तथा सरंक्षण कोष में इक्विटी शेयरों का अंतरण (2 रा अंतरिम लाभांश 2013-14)

एतदुद्वारा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016 (''नियमावली''), समय-समय पर संशोधित जिसमें अन्य विषयों के अलावे निर्धारित प्रक्रिया में ऐसे सभी शेयरों जिसके लिये लगातार सात वर्षों या उससे अधिक से शेयरधारक को लाभांश का भूगतान अथवा उनके द्वारा उसका दावा नहीं किया गया है, को निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण की डीमैट खाता में अंतरण का प्रावधान है, के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुपालन में शेयरधारकों को सूचना

अतएव, ऐसे सभी अंडरलाइंग शेयरों जिसके लिये पिछले 7 वर्षों में लाभांश का भूगतान/दावा नहीं किया गया है (वर्ष 2013-14 के लिये 2रे अंतरिम लाभांश के संदर्भ में) को उक्त नियमावली के अनुसार आईईपीएफ की डीमैट खाता में अंतरित किया

कम्पनी ने ऐसे शेयरधारकों को उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर वैयक्तिक सूचनाऐं भेज दी है जिनके लाभांश पिछले ७ (सात) वर्षों से दावा-रहित पड़े हैं तथा उन्हें सलाह दी गई है कि 10 मार्च, 2021 तक अपने लाभांशों का दावा प्रस्तुत करें। कम्पनी ने उनके नाम, फोलिओं नं. अथवा डीपी आईडी/क्लाइन्ट आईडी आदि सहित ऐसे शेयरधारकों के सम्पर्ण विवरणों को अपनी वेबसाईटों अर्थात www.kamahold-

ings.com पर भी अपलोड कर दिया है। यदि शेयरधारकों से कम्पनी/रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेन्ट को कोई सम्वाद प्राप्त नहीं होती है तो कम्पनी नियत तिथि को ऐसे शेयरों को आईईपीएफ की डीमैट खाता में अंतरित करने के लिये बाध्य होगा। शेयरधारक यह ध्यान रखें कि भौतिक शेयरों के अंतरण के मामले में कम्पनी नया शेयर प्रमाण पत्र (त्रों) जारी करेगी तथा आईईपीएफ की डीमैट खाता के पक्ष में उसे डिमैटेरियलाइज करने के लिये डिपॉजिटरी को सुचित करेगी तथा डीमैट पद्धति में धारित शेयरों के लिये डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स (डीपी) की सहायता से उसे प्रत्यक्ष रुप से आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित किया जायेगा।

ऐसे शेयरों के लिये कम्पनी के विरूद्ध कोई दावा नहीं की जा सकेगी। शेयरधारक यह ध्यान रखें कि ऐसे शेयरों पर यदि कोई हो, उपचियत सभी लाभों सहित आईईपीएफ प्राधिकरण की खाता में अंतरित दोनों दावा-रहित लाभांश तथा शेयरों को आईईपीएफ नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का अनसरण करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण से उसे वापस प्राप्त करने का दावा किया जा सकता है।

इस विषय-वस्तु तथा नियमावली पर किसी प्रकार की पूछताछ अथवा दावे के लिये शेयरधारक कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेन्ट्स मै. केफिन टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31-32, गाछीबाउली, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्स, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032, टेली नं. +91-40-67162222; फैक्स नं.: +91-40-23001153; टोल फ्री नं. 1800-4258-998; ईमेलः einward.ris@kfintech.com से अथवा सिचवालयी विभाग, कामा होल्डिंग्स लिमिटेड, ब्लॉक सी, सेक्टर 45, गुरुग्राम-122003, हरियाणा, फोन नं. +91-124-फैक्स नं.: +91-124-4354500,

info@kamaholdings.com से सम्पर्क कर सकते हैं। कामा होल्डिंग्स लिमिटेड के लिये एकता महेश्वरी

तिथि: 8 दिसम्बर, 2020 पर्णकालिक निदेशक. स्थानः गुरुग्राम सीएफओ एवं कम्पनी सचिव

www.readwhere.com

में प्रावधानित लिंक देखें।

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies associations or individuals advertising in its newspapers

any manner whatsoever.

कार्यालयः आदित्या बिरला हाउसिंग फाइनेंस लि., डी-17, सेक्टर-3, नोएडा यूपी-201301

प्रबंधक निदेशक

सीआईएन : U29304DL2019PLC347460 पंजीकृत कार्यालय : लेवल-5, रीगुस कैडी कॉमर्शियल टॉवर,